



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 9—जून 15, 2007 (ज्येष्ठ 19, 1929)

No. 23]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 9—JUNE 15, 2007 (JYAISTHA 19, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2007

सं. 266, दिनांक 21 मई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :--

1. गु.आ.नि (धातु), इच्छापुर में श्री प्रमोद मोहन सदाफुले की नियुक्ति 15 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

2. व.गु.आ. स्था (आयुध), जबलपुर में श्री वेंकट रत्न सुधाकर राव कम्बाला की नियुक्ति 27 फरवरी 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

3. गु.आ.नि (इलै.), बंगलौर में श्री कन्नन एम की नियुक्ति 03 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

4. व.गु.आ.स्था (इलै.), चेन्नई में श्री प्रफुल्ल पंकज चौरसिया की नियुक्ति 22 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

5. गु.आ.स्था (सैन्य विस्फोटक), खामरिया, जबलपुर में श्री टी के वरदराजन की नियुक्ति 01 जून 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

6. मुख्यालय गु.आ.नि. (धातु एवं विस्फोटक), इच्छापुर में श्री उदय कुमार सिंह की नियुक्ति 31 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

7. गु.आ.नि (प्रणाली), सिकन्दराबाद में श्री संजय शर्मा की नियुक्ति 24 मार्च 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

8. व.गु.आ.स्था (इलै.), बंगलौर में श्री विकास शर्मा की नियुक्ति 24 अगस्त 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

9. मु.गु.आ.स्था (डब्ल्यू.एस.), मुंबई में श्रीमती पुष्पा एल एन की नियुक्ति 26 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

10. व.गु.आ.स्था (एल एण्ड एस), चंडीगढ़ में श्री दलपतिराव टी कृष्णमराजु की नियुक्ति 12 अप्रैल 2006 (पूर्वाह्न) से अस्थायी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ।

11. मुख्यालय गु.आ.नि (नैवल), नई दिल्ली में श्री सुनील कुमार पंडित की नियुक्ति 09 मई 2006 (पूर्वाह) से अस्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।

12. व.गु.आ. स्था (सामान्य भंडार), मुंबई में श्री पुरुषोत्तम डे की नियुक्ति 07 अप्रैल 2006 (पूर्वाह) से अस्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।

13. गु.आ.नि (सामान्य भंडार), कानपुर में श्री एन षण्मगम की नियुक्ति 05 जून 2006 (पूर्वाह) से अस्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।

14. गु.आ.नि (सामान्य भंडार), कानपुर में डॉ. संतोष कुमार तिवारी की नियुक्ति 24 अप्रैल 2006 (पूर्वाह) से अस्थाई वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी-1 के पद पर एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ।

सुभाष चंद
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 267, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 तथा जैसे संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को उसके 06 मार्च 2004 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर यथा संशोधित विशेष थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत पदोन्नति के लिए तारीख 06 नवम्बर 99 से, लेकिन वेतन वृद्धि के लिए तारीख 06 मार्च 99 से वरिष्ठता के साथ लेफ्टिनेंट के पद में तारीख 06 मार्च 2004 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है। तथापि स्थाई कमीशन प्रदान किए गए अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों की तुलना में उनकी वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्पकालीन सेवा कमीशन की मंजूरी के राजपत्र अधिसूचना में निर्धारित की गई है। नीचे दिए गए अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी को नए व्यक्तिगत संख्या आईसी-56561एफ को आईसी-56217डब्ल्यू तथा आईसी-56218वाई के बीच में अल्प सेवा कमीशन की वरिष्ठता के अनुसार रखा जाय।

एसएस सं., आईसी सं., नाम व आर्म/सर्विस

एसएस-37690 (आईसी-56561एफ) सज्जन सिंह शेखावत, एससी

श्रवण कुमार
कर्नल

कर्नल एम एस-7

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(सेना के पद पर 10 दिसम्बर 2005 से)

निम्नलिखित टी ई एस-06 पाठ्यक्रम के कैंडिडेटों की सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2005 से स्थायी रूप से विशेष निर्देश 3/99 के अंतर्गत स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है।

नाम, आईसी नम्बर व आर्म/सर्विस

मनोज नेगी (67736वाई), इंजीनियर

लपालकर परीक्षित मधुसूदन (67737एफ), इंजीनियर

करन इन्दर सिंह, खंगुरा (67738के), सिग्नल

पुष्पेन्द्र त्यागी (67739एम), ईएमई

अनिरुद्ध अग्रवाल (67740एफ), सिग्नल

रविन्द्र सिंह (67741के), इंजीनियर

विनीत शर्मा (67742एम), सिग्नल

प्रणव कुमार ओपल (67743पी), सिग्नल

अपूर्व अग्रवाल (67744एक्स), सिग्नल

अश्विनि कुमार दीक्षित (67745ए), इंजीनियर

दिलराज भिन्डर (67746एच), ईएमई

राज कुमार मिश्रा (67747एल), सिग्नल

निखिल परमार (67748एन), ईएमई

टॉमस जॉन मानी (67749डब्ल्यू), इंजीनियर

योगेश सिंह (67750एल), इंजीनियर

वसीम मुश्ताक हिरोली (67751एन), इंजीनियर

संदीप झा (67752डब्ल्यू), इंजीनियर

अमित कुमार गोयत (67753वाई), ईएमई

प्रेमनाथ ओ (67754एफ), ईएमई

शिंदे सुमीत सूर्याकान्त (67755के), इंजीनियर

विकास चतुर्वेदी (67756एम), ईएमई

अदित भाटिया (67757पी), ईएमई

समीर बंसल (67758एक्स), इंजीनियर

नरेन्द्र सिंह राठौड (67759ए), इंजीनियर

शहजुजब शबीह (67760पी), इंजीनियर

अरविन्द बालाचन्द्रन (67761एक्स), इन्फैन्ट्री

उदय भान दूबे (67762ए), सिग्नल

शैलेन्द्र सिंह मान (67763एच), सिग्नल

सं. 268, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :-

चन्द्रमणी कुमार (67764एल), सिग्नल
 ललित शंकर बेहरा (67765एन), सिग्नल
 पौरुष अरोड़ा (67766डब्ल्यू), ईएमई
 मनोजित सिन्हा (67767वाई), सिग्नल
 अक्षय सिंह शेखावत (67768एफ), ईएमई
 वांबुरकर आदीश सुधीर (67769के), ईएमई
 सचिन सिद्धाराम बम्हाणपुरे (67770वाई), ईएमई
 आशीष कुमार प्रहराज (67771एफ), ईएमई
 अभिनिवेश शर्मा (67772के), सिग्नल
 कार्तिकेय डोभाल (67773एन), इंजीनियर
 रितेश सनोदिया (67774पी), सिग्नल
 मोहित पेंवार (67775एक्स), ईएमई
 रणजीत सिंह तोमर (67776ए), ईएमई
 सचिन उज्ज्वल (67777एच), इंजीनियर
 मनीष सोब्ली (67778एल), ईएमई
 देवेश कोटियाल (67779एन), ईएमई
 भास्कर तलवार (67780एच), ईएमई
 पुनीत कुमार द्विवेदी (67781एल), सिग्नल
 मुशीर अहमद (67782एन), इंजीनियर
 मयंक कुमार जोशी (67783डब्ल्यू), ईएमई
 हुमनाबादकर अमेया संजीव (67784वाई), इंजीनियर
 अभय प्रताप सिंह (67785एफ), ईएमई
 सुमित बसेड़ा (67786के), इंजीनियर
 विशाल थापर (67787एम), आर्टी
 संदीप सिंह (67788पी), इंजीनियर
 सेहमी मनीष सिंह मनमोहन सिंह (67789एक्स), सिग्नल
 आलोक कुमार यादव (67790एम), ईएमई
 राज वर्मा (67791पी), ईएमई
 सुरेश एम (67792एक्स), इंजीनियर
 मोहम्मद माजिद कमाल (67793ए), ईएमई
 तरूण मधुप (67794एच), इंजीनियर
 अभिलोव शर्मा (67795एल), सिग्नल
 आबेग गोयल (67796एन), ईएमई
 मराठे महेश कुमार आनंद राव (67797डब्ल्यू), ईएमई
 कपिल दहिया (67798वाई), सिग्नल
 जतिन कुमार (67799एफ), इंजीनियर

डेविड परेरा (67800एल), ईएमई
 गौरव नइयर (67801एन), इंजीनियर
 जेम्स सबैस्टियन (67802डब्ल्यू), ईएमई
 पवन कुमार (67803वाई), ईएमई
 ग्रंथिवैकट रमेश कुमार (67804एफ), इंजीनियर
 सौरभ हून (67805के), सिग्नल
 अँकुर यादव (67806एम), ईएमई
 अभिषेक गुप्ता (67807पी), ईएमई
 अंकुश शर्मा (67808एक्स), सिग्नल
 गौरव सक्सेना (67809ए), सिग्नल
 अशीष शर्मा (67810पी), इंजीनियर
 शौनक कामत (67811एक्स), इंजीनियर
 मधुसूदन नायर (67812ए), ईएमई
 सचिन सिन्हा (67813एच), इंजीनियर
 कुणाल धगत (67814एल), इंजीनियर
 मनीष नारायण (67815एन), इंजीनियर
 शशी (67816डब्ल्यू), इंजीनियर
 सुरेश चन्द्र साहु (67817वाई), ईएमई
 ध्रुव अस्वाल (67818एफ), सिग्नल
 शिंदे रोहित आनन्द (67819के), सिग्नल
 साने अभिजीत दीपक (67820वाई), इंजीनियर
 सौरव रॉय (67821एफ), इंजीनियर
 सुराज श्रेष्ठ रे लाला (67822के), सिग्नल
 अभीक दास (67823एम), ईएमई
 रितेश भारद्वाज (67824पी), सिग्नल

अल्प सेवा आयोग

लेफ्टि के पद पर

निम्नलिखित अधिकारी ने अल्प सेवा आयोग छः मास का समय जो कि 19 मार्च 2005 से आरंभ हुआ था, लेफ्टि के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 19 मार्च 2005 से अल्प सेवा आयोग लेफ्टि के पद पर पाँच वर्ष के लिए विशेष सेनानुदेश 3/एस/98 संशोधित के अन्तर्गत प्रदान किया जाता है :-

औचिन दीप शर्मा (एसएस-41366एम), एसोसी निर्दिष्टता ज्येष्ठता लेफ्टि तुषार चौहान (एसएस-41365के), इन्फैन्ट्री जिनका नाम भारतवर्ष के राजपत्र में दिनांक 06 मई 2006 को प्रकाशित हो चुका है, उसी में अंकित किया जाता है।

एस के शर्मा

लेफ्टि कर्नल

सहायक सेना सचिव-8बी

सं. 269, दिनांक 21 मई 2007--भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

अवैतनिक वायु सेना एडीसी (दिनांक 01.02.2007 से प्रभावी)

एयर मार्शल बी एन गोखले प वि से मै, अ वि से मै, बी एम (11630) एफ (पी)

अवैतनिक वायु सेना एडीसी (दिनांक 01.04.2007 से प्रभावी)

एयर मार्शल पी एस अहलूवालिया, प वि से मै, अ वि से मै तथा बार बी एम, वि से मै, (11631) एफ (पी)

एस डी बांगा
अवर सचिव

नेवी ब्रांच

एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

सं. 270, दिनांक 21 मई 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को दिनांक 30.11.2006 से 31.12.2006 तक अथवा नियमित चयन सूची से उम्मीदवारों की उपलब्धता तक के समय में से जो भी पहले हो, सशस्त्र सेना मुख्यालय की आशुलिपि सेवा में अस्थायी आधार पर निजी सचिव (वर्ग 'ख' राजपत्रित वेतनमान रु. 6,500--10,500/-) नियुक्त करते हैं :--

(क) श्रीमती वेद रहेजा

(ख) श्रीमती उर्मिल

(ग) श्रीमती डी के खुराना

उपर्युक्त अधिकारियों की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2004 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

(क) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी तथा प्रशासनिक कारणों से बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

(ख) उपर्युक्त पद पर स्थायी नियुक्ति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थाई नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. 271, दिनांक 21 मई 2007--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव श्री पी. के. मलिक की 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में नियुक्ति को 1.1.2007 से 30.6.2007 तक या नियमित प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर और आगे बढ़ाते हैं।

एस के देव
अवर सचिव

सं. 272, दिनांक 21 मई 2007--भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार : 76) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में अपर सचिव श्री शशि कान्त शर्मा के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय) में अपर सचिव के रूप में नियुक्त होने के फलस्वरूप 5.4.2007 (अपराह्न) से उनकी सेवाएं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय) को सौंपी जाती हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (एम एम : 76) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री रंजन चटर्जी का समयपूर्व प्रत्यावर्तन किए जाने के फलस्वरूप 31.03.2007 (अपराह्न) से उनकी सेवाएं मेघालय सरकार को सौंपी जाती हैं।

एस के देव
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 273, दिनांक 24 मई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को जिन्हें अल्पकालीन सेवा कमीशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था पुष्टि, उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

भारतीय वायु सेना

वैमानिक अभियांत्रिकी इलैक्ट्रॉनिक्स

फ्लाईंग अफसर पूजा प्रिया (28634), मीना शर्मा (28635), पंकर नरवीला विश्वनाथ (28636), प्रियंका चौबे (28637)--30 जून 2006 से प्रभावी।

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अल्पकालीन सेवा कमीशन अफसर की पुष्टि, उनके नाम के सामने दी गई तिथि से करते हैं।

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग अफसर सुप्रिता कौर (28271), नम्रीता कौर (28275)--18 दिसम्बर 2004 से

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों जिन्हें स्थायी कमीशन (परखाधीन) रखा गया था की पुष्टि 30 जून 2006 से करते हैं। उन्हें उनके नाम के सामने दी गई तिथि से पूर्व तिथि (Ante-Date) प्रदान की जाती है।

वैमानिक अभियांत्रिकी शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर एस कृष्णादास (28362), एड (एल), गुरु प्रसाद आर (29132), एड (एल), प्रशांत वर्मा (28596), एड (एम), अजय सिंह फोगट (28626), एड (एल), धरमेन्द्र सिंह (29130), एड (एम), कुलदीप सिंह (28601), एड (एम), एस के कक्कड़ (28622), एड (एल), एस एस पिल्लई (28607), एड (एल), गौरव माथुर (28610), एड (एल), ए के विश्वनाथ (29133), एड (एल), वी पी जयराम (28612), एड (एल), सौरव भंडारी (28628), एड (एल), एस सेंथिल कुमार (28621), एड (एल), एस महेश कुमार (28633), एड (एल), पी एस राठोड़ (28599) एड (एल), हरप्रीत सिंह (28606) एड (एल), जनिन सुरेन्द्रन (28619), एड (एल), उदय कुमार टी एम (28618), एड (एल), कुरूप अजेश (28600), एड (एम), एस पवन (28632),

एइ (एल), किरपामोड डे (29135), एइ (एल), के एन संदीप (28629), एइ (एल), बी सी शेखर (29131), एइ (एम), यु रंजीत (28616), एइ (एल), नीरज मिश्रा (28595), एइ (एम), ए एस परिहार (28623), एइ (एल), जानी ई (28609), एइ (एल), सुनिल त्यागी (28630), एइ (एल), राकेश आनंद एस (28604), एइ (एल), पोते उदय प्रमोदराव (28615), एइ (एल), पी के शर्मा (28598), एइ (एम), विरेन्द्र सिंह (28611), एइ (एल), एस जी मगोत्रा (28627), एइ (एल), प्रभू आर (28602), एइ (एम), के राकेश (28605), एइ (एल), विनू वर्गीस (28620), एइ (एल), किरण के एल (28625), एइ (एल), मंजीत चौधरी (28608), एइ (एम), अमित कुमार (28632), एइ (एल), अंदोनी दविस सी (28603), एइ (एल), राजेश एम (28614), एइ (एल), सी एस वी के नायडू (28613), एइ (एल), प्रमोद कुमार (28624), एइ (एल), सुशील कुमार (28597), एइ (एम), समीरन जाना (28617), एइ (एल), पूर्व तिथि (Ante-date) दिनांक 30 जून 2004 से प्रभावी।

एन विजय कुमार
विंग कमांडर
जेडीपीओ-3(डी)

सं. 274, दिनांक 21 मई 2007--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

तोपखाना रेजिमेन्ट

सबस्टैंटिव सूबेदार (जीडी) के पद में

नायब सूबेदार सुशील कुमार (जेसी-266694पी), 17 फरवरी 2007/
01 अक्टूबर 2006*

नायब सूबेदार हरबन्स सिंह (जेसी-267433एन), 02 फरवरी 2007/
01 अक्टूबर 2006*

नायब सूबेदार सूर्यवंश चौधरी (जेसी-265537डब्ल्यू), 08 फरवरी
2007/01 नवम्बर 2006*

नायब सूबेदार जसवन्त सिंह चंपावत (जेसी-265281वाई), 20 सितम्बर
2006/01 जुलाई 2006*

नायब सूबेदार बेअंत सिंह (जेसी-266353के), 30 दिसम्बर 2006/
01 अक्टूबर 2006*

नायब सूबेदार काबल सिंह (जेसी-266984एम), 26 दिसम्बर
2006/01 अक्टूबर 2006*

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-266067एच), 15 नवम्बर 2006/
01 अक्टूबर 2006*

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-265203एफ), 14 नवम्बर 2006/
01 जून 2006*

नायब सूबेदार रविन्द्र सिंह (जेसी-265850एफ), 02 मार्च 2007/
01 फरवरी 2007*

नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह (जेसी-266568एच), 22 फरवरी
2007/01 फरवरी 2007*

नायब सूबेदार अखिलेश कुमार अवस्थी (जेसी-266632पी),
01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार सोमन पी के (जेसी-265715एन), 09 फरवरी 2007/
12 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-265890एच), 27 जनवरी
2007/01 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार वेद प्रकाश वर्मा (जेसी-266455ए), 23 जनवरी
2007/01 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार घासी राम यादव (जेसी-266868के), 01 जनवरी
2007

नायब सूबेदार राम कृष्ण केतनचोथ (जेसी-267308के), 01 जनवरी
2007

नायब सूबेदार जयपाल सिंह (जेसी-267952डब्ल्यू), 06 जनवरी
2007/01 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-265577एक्स), 28 फरवरी 2007/
01 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार मिथिलेश कुमार यादव (जेसी-265730एच), 07 मार्च
2007/01 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार परमजीत सिंह (जेसी-265816एफ), 27 फरवरी
2007/01 फरवरी 2007*

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-266137डब्ल्यू), 05 मार्च
2007/01 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार हरभजन सिंह (जेसी-266711के), 14 मार्च 2007/
11 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार रघुनन्दन पिल्ले वी (जेसी-266606एन), 06 मार्च
2007/25 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-266052ए), 18 फरवरी 2007/
01 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार हरदन सिंह (जेसी-265886ए), 05 फरवरी 2007/
01 जनवरी 2007*

नायब सूबेदार कृष्ण देव प्रसाद यादव (जेसी-266505ए), 01 मार्च
2007

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-266844ए), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार प्रदुत कुमार प्रमाणिक (जेसी-267315ए), 03 मार्च
2007/01 मार्च 2007*

नायब सूबेदार दुनी चन्द (जेसी-267505एम), 10 मार्च 2007/
01 मार्च 2007*

नायब सूबेदार अब्दुल अशीश एन (जेसी-267845पी), 14 मार्च
2007/01 मार्च 2007*

*(ज्येष्ठता प्राप्त)

कोर ऑफ सिगनल्स

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार योगेन्द्र कुमार (सं. 14253088डब्ल्यू अब जेसी-376719वाई), 01 अगस्त 2006

हवलदार विजयन पी टी (सं. 14253551एम अब जेसी-376720एन), 01 अगस्त 2006

हवलदार गीता राम साटी (सं. 14253455एक्स अब जेसी-376721डब्ल्यू), 23 अगस्त 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राम सूरत प्रसाद (सं. 14253654एल अब जेसी-376722वाई), 02 सितम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार एस एन शर्मा (सं. 14253945एल अब जेसी-376723एफ), 24 अगस्त 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार पी सी विश्वल (सं. 14244471एन अब जेसी-376724के), 01 अगस्त 2006

हवलदार जोर्ज ई जे (सं. 14254664एफ अब जेसी-376725एम), 01 अगस्त 2006

हवलदार जोगी राम (सं. 14254927पी अब जेसी-376726पी), 21 अगस्त 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार ए के सिन्हा (सं. 14255092एक्स अब जेसी-376727एक्स), 01 अगस्त 2006

हवलदार हरपाल सिंह (सं. 14248957डब्ल्यू अब जेसी-376728ए), 22 अगस्त 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार टी श्रीनिवास (सं. 14254090ए अब जेसी-376729एच), 01 अगस्त 2006

हवलदार रमेश पाल सिंह (सं. 14248635डब्ल्यू अब जेसी-376730एक्स), 01 सितम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14249732ए अब जेसी-376731ए), 01 अगस्त 2006

हवलदार जयबीर सिंह (सं. 14255799पी अब जेसी-376732एच), 01 अगस्त 2006

हवलदार वासु देव (सं. 14248862डब्ल्यू अब जेसी-376733एल), 22 अगस्त 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सरजीवन परमार (सं. 14248477एम अब जेसी-376735डब्ल्यू), 26 अगस्त 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार सतीश चन्द्र पाल (सं. 14254387एफ अब जेसी-376788पी), 22 अगस्त 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार समोन सेल्वाधास जे (सं. 14247083एफ अब जेसी-376789एक्स), 01 सितम्बर 2006

हवलदार लालासाब किलेदार (सं. 14246141एम अब जेसी-376790एम), 01 सितम्बर 2006

हवलदार अमरेन्द्र किशोर (सं. 14250913एक्स अब जेसी-376791पी), 01 सितम्बर 2006

हवलदार रमेश चन्द (सं. 14250997डब्ल्यू अब जेसी-376792एक्स), 01 सितम्बर 2006

हवलदार सत्यपाल सिंह (सं. 14255211एच अब जेसी-376793ए), 01 सितम्बर 2006

हवलदार बालकरन सिंह (सं. 14248889एन अब जेसी-376794एच), 01 सितम्बर 2006

हवलदार लक्ष्मण सिंह (सं. 14250122ए अब जेसी-376795एल), 01 सितम्बर 2006

हवलदार राम नरेश सिंह (सं. 14249181ए अब जेसी-376796एन), 01 सितम्बर 2006

हवलदार केवल सिंह (सं. 14249538एल अब जेसी-376797डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

हवलदार भीमप्पा एच (सं. 14246220एच अब जेसी-376799एफ), 01 सितम्बर 2006

हवलदार एस सी श्रीवास्तव (सं. 14254461एक्स अब जेसी-376800एल), 01 सितम्बर 2006

हवलदार मोहम्मद राजौल करीम (सं. 14249089एफ अब जेसी-376801एन), 01 सितम्बर 2006

हवलदार देवेन्द्र सिंह (सं. 14255835पी अब जेसी-376802डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

हवलदार विपन चन्दर (सं. 14251948ए अब जेसी-376803वाई), 01 सितम्बर 2006

हवलदार हरे राम सिंह (सं. 14253865एन अब जेसी-376804एफ), 01 सितम्बर 2006

हवलदार रमेश चन्दर (सं. 14255951एक्स अब जेसी-376805के),
01 सितम्बर 2006

हवलदार भूमि देव (सं. 14258244वाई अब जेसी-376806एम),
01 सितम्बर 2006

हवलदार अशोक कुमार शर्मा (सं. 14260594के अब जेसी-376807पी), 01 सितम्बर 2006

हवलदार जयवीर सिंह (सं. 14260808पी अब जेसी-376808एक्स),
01 सितम्बर 2006

हवलदार बी के सिंह (सं. 14261044एन अब जेसी-376809ए),
01 सितम्बर 2006

हवलदार एस एस नाथू (सं. 14252052एल अब जेसी-376810पी),
01 सितम्बर 2006

हवलदार आर के मंडल (सं. 14256012एफ अब जेसी-376844एच),
01 सितम्बर 2006

हवलदार चन्द्रन के (सं. 14258103के अब जेसी-376845एल),
01 सितम्बर 2006

हवलदार एस एस महिपत (सं. 14251333पी अब जेसी-376846एन),
01 सितम्बर 2006

हवलदार यादव अशोक लक्ष्मण (सं. 14251354एल अब जेसी-376847डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

हवलदार रमेश चन्द (सं. 14258831के अब जेसी-376849एफ),
10 अक्टूबर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार बीर सिंह (सं. 14258329पी अब जेसी-376856एक्स),
13 अक्टूबर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राधा कृष्णन मीना (सं. 14248981एम अब जेसी-376862एल), 01 अक्टूबर 2006

पी रामा शास्त्री
अवर सचिव

सं. 275, दिनांक 23 मई 2007---राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

कर्नल (समकक्ष) से ब्रिगेडियर (समकक्ष) पद पर

एस ए क्रूज (एमआर-3447एच), 05 जून 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले पदोन्नति 06 मई 2006

टार पी चौबे (एमआर-4188एक्स), 16 नवम्बर 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक पदोन्नति 04 जून 2006

एन के शर्मा (एमआर-3530ए), 29 अक्टूबर 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक पदोन्नति 03 सितम्बर 2006

आर कुशावाहा (एमआर-4220एफ), 01 दिसम्बर 2006 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक पदोन्नति 06 सितम्बर 2006

पी के साहू (एमआर-3728वाई), 01 जनवरी 2007 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक पदोन्नति 01 अक्टूबर 2006

ग्रुप कैप्टन (समकक्ष) से एयर कम्पोजर (समकक्ष) पद पर

ए के बहल (एफ-14446), (एमआर-03599के), 01 जनवरी 2007 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 दिसम्बर 2006 से दी जाती है।

राजेश कामरान

ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (कार्मिक)

सं. 276, दिनांक 22 मई 2007---राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी की सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन डी वी शर्मा (टी ए सं.-42323), इन्फैन्ट्री, 02 जनवरी 2005

एन कालियप्पन

अवर सचिव

सं. 277, दिनांक 23 मई 2007---राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टि कर्नल

आईसी सं., नाम व आर्म

(51966) भरत सिंह बैनिवाल, इन्फैन्ट्री--12 जून 2006

(54872) जयन्तो घोष, एडी आर्टी--04 नवम्बर 2006

(51864) मनीश कुमार शर्मा, इंजी.--19 दिसम्बर 2005

शिव राम बैरवा

उप-निदेशक

एमएस-8सी

सं. 278, दिनांक 21 मई 2007—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार/लिपिक संतोष कुमार मोंहता (सं. 14912244एम अब जेसी-420614एक्स), 11 दिसम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक राज कुमार (सं. 14911900डब्ल्यू अब जेसी-420615ए), 08 दिसम्बर 2006 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक अशोक कुमार शर्मा (सं. 14911908एच अब जेसी-420616एच), 02 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक पी के शशीधरन (सं. 14911913एन अब जेसी-420661पी), 03 मार्च 2007 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

हवलदार/लिपिक माणिक चंद्रा मोर्या (सं. 14911914डब्ल्यू अब जेसी-420662एक्स), 01 मार्च 2007 *

नायब सूबेदार (एसकेटी) के रैंक में

हवलदार/एसकेटी सुभाष चन्द्रा (सं. 14902884एच अब जेसी-420646ए), 06 जनवरी 2007 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार/एसकेटी गवर सिंह (सं. 14905180के अब जेसी-420663ए), 01 मार्च 2007

ह. अपठनीय
अवर सचिव

सं. 279, दिनांक 24 मई 2007—को राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल में मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आई सी सं. नाम, आर्म और सब्सटेंटिव तिथि

38738 राजकुमार, सिग्नल्स, 07 जून 2006

31102 एसपीएस संधू, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004

33723 विनोद कुमार, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
33795 एपीटी सेल्वाकुमार, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
37604 वी डी सिंधे, एएडी, 30 अप्रैल 2006
37616 गुरप्रीत सिंह, एएडी, 30 अप्रैल 2006
37688 वीएस राठौर, एएडी, 14 नवम्बर 2006
37713 विजय कुमार पिल्लै, इन्फैन्ट्री, 14 नवम्बर 2006
38901 ए के गैरोला, आर्टी, 07 जून 2006
39012 के पुरुषोत्तम, इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
39116 गुरपिन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39129 एस के भट्टाचार्य, एसी, 13 दिसम्बर 2006
39228 अनिल पुरी, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39273 जितेन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39326 आरएन पाण्डे, आर्टी, 13 दिसम्बर 2006
39359 रवीन्द्र एन सेनापति, आर्टी, 13 दिसम्बर 2006
39393 वी के शर्मा, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39836 के एस चौधरी, इंजी., 13 जून 2005
40663 आर के भटनागर, इंजी., 12 जून 2006
41049 एल एस पटवाल, सिग्नल्स, 24 दिसम्बर 2006
31506 आर सी दीक्षित, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
31933 पी शेखालकर, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
38148 एम एम दत्ता, आर्टी, 09 जून 2005
39168 एन एस चौहान, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39174 एससी धौन्दियाल, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39198 एस एस राणा, एसी, 13 दिसम्बर 2006
39220 मनजीत सिंह, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39239 कमलेश कुमार, एएडी, 13 दिसम्बर 2006
39247 शंकर राजीव, एओसी, 13 दिसम्बर 2006
39266 एस पी सिंह, आर्टी, 13 दिसम्बर 2006
39271 राकेश कुमार, आर्टी, 13 दिसम्बर 2006
39303 एनवाई जोर्ज, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39310 प्रमोद कुमार, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39323 टम जोश, आर्टी, 13 दिसम्बर 2006
39329 वी पी मेनन, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39332 डी एम शर्मा, इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39333 देवेन्द्र कुमार, सिग्नल्स, 13 दिसम्बर 2006
39346 प्रवीण के सिन्हा, मैक इन्फैन्ट्री, 13 दिसम्बर 2006
39364 मिथिलेश कुमार, एओसी, 13 दिसम्बर 2006

अजय गोयल
उप निदेशक
एमएस-8ए

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 280, दिनांक 23 मई 2007--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
सर्वश्री/श्रीमति					
01.	ए डी गुप्ता	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200/-
02.	एम जयरामुलु	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
03.	एस रमेश	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
04.	आर अशोक	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
05.	पी बी मिस्त्री	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
06.	एम विजय कुमार	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
07.	ए के प्रेम सागर	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
08.	डी प्रसाद	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
09.	डी मुस्ताईया	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
10.	वी एलेक्जेंडर निकोला	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
11.	यू लीला कुमारी	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
12.	ए के सुगुनन	सी ए आई आर	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
13.	एम आर शेषाम्बा	सी सी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
14.	टी के चावला	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
15.	ए के वशिष्ठ	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
16.	सी एस माझी	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500/-
17.	ए के श्रीवास्तवा	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500/-
18.	पुष्पा देवी	टी बी आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200/-
19.	अनिल कुमार कच्छवाहा	डी एल जे	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
20.	मनीष कुमार मिश्रा	डी एल जे	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
21.	मादा राम पटेल	डी एल जे	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
22.	हनुमान संगवा	डी एल जे	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500/-
23.	मिसरी लाल	डी एल जे	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
24.	दादी इलैया	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
25.	एम प्रभाकर रेड्डी	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
26.	जी सत्यनारायना	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
27.	एन फणेश्वरा राव	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
28.	ओ एल एन इंदु सेखर	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--

1	2	3	4	5	6
सर्वश्री/श्रीमति					
29.	जी एच रंगाराव	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500/-
30.	राज कुमार वर्मा	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
31.	खमर सुल्ताना	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
32.	वी विजया कुमारी	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
33.	एन वी रमना राव	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
34.	बी अशोक	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
35.	के रमेश बाबू	डी आर डी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
36.	डी वी सरवासे	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200/-
37.	जी आर कुरुलकर	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
38.	एच अरी	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
39.	एस के पनचन्कर	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
40.	के जी ईनामदार	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
41.	जी एस देशपांडे	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
42.	एन जी स्वर्गे	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
43.	एस एस समुद्रे	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
44.	एस पी नेवाले	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
45.	के के वासन	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
46.	वी एम कुगांवकर	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
47.	एस पी वेलापुर	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
48.	एस एस जगताप	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
49.	एस एम लान्डे	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
50.	जे आर पेशावे	एच ई एम आर एल	तकनीकी अधिकारी 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'डी'	रु. 12,000-375-16,500/-
51.	एस सुकुमारन	एन पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200/-
52.	एनी पी साइमन	एन पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
53.	के एम अब्दुल वहाब	एन पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
54.	ए ऊषाकुमारी	एन पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
55.	जी गोपी	एन पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
56.	जॉन पी वर्गीस	एन पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
57.	के ए गोपी	एन पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
58.	मनीक्याम्बा	एन पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
59.	चेरियन पी थामस	एन पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--

1	2	3	4	5	6
सर्वश्री/श्रीमति					
60.	के ए जैकब	एन पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
61.	जी जी रवि	सेमिलॉक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
62.	अब्राहम कुरियन	सेमिलॉक	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
63.	अधिकाण्डा पति	आई टी आर	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
64.	बी के बिस्वाल	आई टी आर	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
65.	बी के रथ	आई टी आर	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
66.	कुसुम लता पांडे	डी ए आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
67.	डी एस भाकुनी	डी ए आर एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
68.	आर पी सिंह	डी एस टी डी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
69.	एन के खोसला	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
70.	एच के शर्मा	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
71.	वी वी एस पनवार	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
72.	किरन सिन्हा	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 8,000-275-13,500
73.	परमेश्वर दिन	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
74.	बलराम पाठक	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
75.	पी के विष्ट	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
76.	जी पी जोशी	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
77.	ई श्यामकिशवर सिंह	आई एस एस ए	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
78.	डॉ. के दिव्यानन्दा	सी ए बी एस	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
79.	सी राविकुमारन नायर	ए पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
80.	जी सनलकुमार	ए पी ओ एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
81.	दीपक छाबरा	टी बी आर एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7450-225-11,500
82.	सुरेश मोहन	टी बी आर एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
83.	अंजुलता पुरोहित	डी एल जे	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
84.	श्री लाल विश्नोई	डी एल जे	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
85.	वसु देव	डी एल जे	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
86.	शशिलेखा	सी ए आई आर	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
87.	पी मल्लेशम	सी सी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
88.	के श्रीनिवास	सी सी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
89.	के जे रविचन्द्रन	सी सी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--

1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/श्रीमति				
90.	शेख जी मोहिदीन	सी सी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
91.	भूपाल सिंह	आर आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
92.	रवि भल्ला	आर आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
93.	अश्वनी कुमार	आर आर डी ई	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
94.	यू सी जोशी	डी ए आर एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
95.	जी एस चमोली	डी ई ए एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
96.	राजीव वर्मा	डी ई ए एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
97.	एस के चावला	डी ई ए एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
98.	ए के पांडा	आई टी आर	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
99.	मुरलीधर दलाई	आई टी आर	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
100.	खगेश्वर साहू	आई टी आर	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
101.	टी साईराम पेट्टे	आई टी आर	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
102.	पी ए सुकुमारन नायर	एन पी ओ एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
103.	के वी सुरेन्द्रन	एन पी ओ एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
104.	एन सुरेन्द्रनादन	एन पी ओ एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
105.	एस वसन्था कुमारी	एन पी ओ एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
106.	ए पी शेन्डी	एन पी ओ एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
107.	मन्जुनाथ	डी आर डी एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
108.	एस जी वी मूर्ति	डी आर डी एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
109.	के रामास्वामी	डी आर डी एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
110.	उमा महेश्वरी	डी आर डी एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
111.	पी मोहन	डी आर डी एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
112.	एम वी शंकर	डी आर डी एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
113.	एस लिंगम राव	डी आर डी एल	वरिष्ठ तकनीकी सहायक 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--

बी. बी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)

सं. 281, दिनांक 21 मई 2007—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री वेद प्रकाश गर्ग की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 अप्रैल, 2007 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

एस. के. देब
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 282, दिनांक 24 मई 2007—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 28 फरवरी 2005 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना (स्थायी कमीशन)

वी 298	कर्नल विनायक नारायण खापरे, आरवीसी
आई सी-24172	कर्नल नरेन्द्र भूषण, इन्जीनियर्स
आई सी-25680	कर्नल (टी एस) उत्तम चन्द छिब, 5 जीआर
आई सी-25989	कर्नल अनूप सिंह राठी, 9 जीआर
आई सी-27030	कर्नल कुश कुमार सिंघल, इन्जीनियर्स
आई सी-27091	कर्नल (टी एस) अरविन्द पाल सिंह सन्धू, सिख एल
आई	
आई सी-30106	कर्नल सुरिन्दर सिंह, आर्टी
आई सी-30142	कर्नल विश्वास भास्करराव शिन्दे
आई सी-30624	कर्नल (टी एस) प्रकाश सिंह बाजवा, आईसी
आई सी-30651	कर्नल (टी एस) अमलेन्दु मंडल, आईसी
आई सी-30976	कर्नल (टी एस) बिमल सरकार, आईसी
आई सी-31977	कर्नल (टी एस) दारके दिलिपकुमार दगादू, सिगनल्स
आई सी-32441	कर्नल कुलदीप सिंह, 1 जीआर
आई सी-32473	कर्नल मोहिन्दर पाल सिंह खालोन, आर्टी
आई सी-32718	कर्नल मंजीत सिंह भल्ला, पारा
आई सी-32955	कर्नल हंगलेम जॉयकुमार सिंह, आईसी
आई सी-33014	कर्नल सतवन्त सिंह चाहल, राज रिफ
आई सी-33392	कर्नल (टी एस) रमेश कुमसी, 4 जीआर
आई सी-34645	कर्नल (टी एस) धनीराम सोलंकी, सिगनल्स
आई सी-34845	कर्नल (टी एस) सिसिर कुमार मिश्रा, आर्टी
आई सी-34879	कर्नल मोहिन्दर सिंह पठानिया, पंजाब
आई सी-35497	कर्नल (टी एस) जगदीश सिंह सुरा, आर्टी
आई सी-35849	कर्नल (टी एस) अनिल कुमार, ईएमई
आई सी-36514	कर्नल राजेन्द्र जैन, सिगनल्स
आई सी-36519	कर्नल (टी एस) कृष्णा कुमार ठाकुर, सिगनल्स
आई सी-36560	कर्नल गया लाल गुप्ता, ईएमई
आई सी-36618	कर्नल लक्ष्मेन्द्र कुमार सैनी, एएससी
एस एल-2804	ले. कर्नल धर्म सिंह एडी, आर्टी

एस एल-3036	ले. कर्नल सत्य पाल सिंह, आरओ
एस एल-3102	ले. कर्नल बलबीर सिंह, क्यूएम
एस एल-3717	ले. कर्नल भोला दत्त बर्शिला, इन्जीनियर्स
एस एल-3767	ले. कर्नल अमिनुला ईस्लाम चौधरी
आर सी-760	मेजर दीप सिंह, राज रिफ
आर सी-810	मेजर सूबे सिंह यादव, पारा

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मार्च 2005 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना (स्थायी कमीशन)

वी 329	कर्नल नरेश कुमार, आरवीसी
आई सी-25690	कर्नल सुरिन्दर सिंह उप्पल, ग्रेनेडियर्स
आई सी-25854	कर्नल नरेन्द्र सिंह तोमर, 3 जीआर
आई सी-25893	कर्नल संजीव वट्टल, पारा
आई सी-25949	कर्नल अरूण मोल्लिक, इन्जीनियर्स
आई सी-27336	कर्नल महेन्द्र कुमार त्यागी, आर्टी
आई सी-31303	कर्नल अशोक कुमार धर, ईएमई
आई सी-31409	कर्नल मिन बहादुर राणा, मराठा एलआई
आई सी-31571	कर्नल (टी एस) प्रवीन कुमार मल्होत्रा, ईएमई
आई सी-33461	कर्नल (टी एस) सुरेश कुमार मल्होत्रा, आर्टी
आई सी-33473	कर्नल गोविन्द सिंह पन्ता, मराठा एलआई
आई सी-33865	कर्नल (टी एस) जयन्त सरकार, सिगनल्स
आई सी-33877	कर्नल (टी एस) शशी कुमार, एओसी
आई सी-34326	कर्नल श्री दत्त सरावत, सिगनल्स
आई सी-35146	कर्नल रूप चन्द जसवाल, एओसी
आई सी-35572	कर्नल रामवतार सिंह निर्बन, राजरिफ
आई सी-36158	कर्नल धिरेन्द्र नाथ दास, सिगनल्स
एस एल-2586	ले. कर्नल कृष्ण देव राणा, आरओ
एस एल-2824	ले. कर्नल निलाम्बर जोशी, इन्जीनियर्स
एस एल-3160	ले. कर्नल श्रीनिवास श्रीनिवासन, आरओ
एस एल-3162	ले. कर्नल शुभ करण सिंह चम्बियाल, आरओ
एस एल-3167	ले. कर्नल चमन लाल सूदन, एडी आर्टी
एस एल-3233	ले. कर्नल कृपाल सिंह भीन्दर, सिगनल्स
एस एल-3408	ले. कर्नल सतवन्त सिंह, ईएमई
एस एल-3476	ले. कर्नल शिव चरण दास भारद्वाज, ईएमई

एस एल-3511 ले. कर्नल सतवन्त सिंह, सिगनल्स
 एस एल-3530 ले. कर्नल जगदीश चन्द्र, आरओ
 एस एल-3533 ले. कर्नल किष्काकिकोधट्टू चिलनप्पन अरविन्दाक्शन नायर, आरओ

एस एल-3546 मेजर दशरथ प्रसाद, आरओ
 एस एल-3763 ले. कर्नल बी पी भट्टाचार्य, आरओ
 एस एल-3790 ले. कर्नल ओमबीर सिंह, ईएमई
 आर सी-841 मेजर आर एस तिवारी, सिगनल्स
 आर सी-846 मेजर संत सिंह, एसी
 आर सी-884 मेजर एस मारिया सुसई, आर्टी

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 जून 2005 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना (स्थाई कमीशन)

आई सी-25051 कर्नल विनोद कुमार चौधरी, इन्जीनियर्स
 आई सी-27818 कर्नल परविन्दर सिंह, एसी
 आई सी-27970 कर्नल विरेन्द्र कुमार शर्मा, जैक रिफ
 आर सी-30032 कर्नल काननछाथ अरूण कुमार नायर, एसी
 आई सी-31349 कर्नल कुलदीप सिंह, पंजाब
 आई सी-31935 कर्नल सुधाकरा राव तुमती, इन्जीनियर्स
 आई सी-31973 कर्नल (टी एस) अहमद सईद, सिगनल्स
 आई सी-32801 कर्नल रमेश कुमार, आर्टी
 आई सी-32904 कर्नल तेजिन्दरपाल सिंह गिल, सिख
 आई सी-33099 कर्नल (टी एस) रोशन लाल यादव, कुमाऊं
 आई सी-33197 कर्नल प्रेम भुषण जोनेजा, आर्टी
 आई सी-33614 कर्नल जॉन एन्थोनी अलोईयस डिसोजा, राजरिफ
 आई सी-33820 कर्नल गुरचरण सिंह सिधू, सिगनल्स
 आई सी-33900 कर्नल विनोद कुमार सुद, ईएमई
 आई सी-34092 कर्नल (टी एस) वाजहापरमपिल जैकब जौनी, आर्टी
 आई सी-34099 कर्नल (टी एस) बेरा सिंह, आर्टी
 आई सी-34884 कर्नल (टी एस) हरविन्दर सिंह सोहल, राजपूत
 आई सी-34893 कर्नल (टी एस) मुकेश शर्मा, आर्टी
 आई सी-35663 कर्नल (टी एस) अमर सिंह सावन्त, एसी
 आई सी-36066 कर्नल (टी एस) निरूपम देवनाथ, आर्टी
 आई सी-36076 कर्नल हरिन्दर सिंह चीमा, इन्जीनियर्स
 आई सी-36100 कर्नल प्रदीप कुमार नियोगी, जाट

आई सी-36263 कर्नल देविन्दर कुमार, पंजाब
 आई सी-36264 कर्नल मालावली श्रीकान्तईया फानी राज, एडी आर्टी
 आई सी-36285 कर्नल (टी एस) होशियार सिंह जतराना, राज रिफ
 आई सी-36480 कर्नल (टी एस) कोशी पुथुर मनी, एओसी
 आई सी-36597 कर्नल (टी एस) थामस अईलूकुनेल फिलिप, इन्ट कोर

आई सी-36896 कर्नल राजेन्द्र कुमार सिगनल्स,
 वी 284 कर्नल शम्भू शर्मा, आरवीसी
 एस एल-2326 कर्नल सी के राधाकृष्णन, इन्जीनियर्स
 एस एल-2799 मेजर जॉन स्टेन्ले डिसोजा, आरओ
 एस एल-2998 कर्नल ए डी शर्मा, एपी टीसी
 एस एल-3020 ले. कर्नल राजेन्द्र कुमार चौबे, आरओ
 एस एल-3234 ले. कर्नल कपत बालागोपालन, सिगनल्स
 एस एल-3293 ले. कर्नल ज्ञान चन्द राणा, ईएमई
 एस एल-3304 ले. कर्नल गुरुवप्पा कृष्णास्वामी, ईईसी
 एस एल-3363 ले. कर्नल वसानागास्ता सत्यनारायण रेड्डी, इन्जीनियर्स
 एस एल-3475 ले. कर्नल मस्तक मनी शर्मा, ईएमई
 एस एल-3492 ले. कर्नल महेन्द्रा कुमार नागर, आरओ
 एस एल-3693 मेजर मोहम्मद युसूफ, इन्जीनियर्स
 एस एल-3816 ले. कर्नल कुलदीप सिंह गोसाई, ईएमई
 आर सी-827 मेजर राजबीर सिंह पोगट, राजरिफ
 आर सी-853 मेजर एन उदय चन्द्रन, सिगनल्स

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 अगस्त 2005 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना (स्थाई कमीशन)

आई सी-25526 कर्नल प्रमोद शर्मा, सिगनल्स
 आई सी-25945 कर्नल विनायक बाल केलकर, आर्टी
 आई सी-27082 कर्नल विरिन्दर पाल सिंह शेखों, आर्टी
 आई सी-27286 कर्नल अरूण कुमार उप्पल, आर्टी
 आई सी-27493 कर्नलअजीत सिंह राठौर, जैकएलआई
 आई सी-30426 कर्नल अरविन्द कुमार नेगी, एडीआर्टी
 आई सी-30496 कर्नल कल्याण भट्टाचार्य, सिगनल्स
 आई सी-31224 कर्नल (टी एस) अनिल कुमार गुप्ता, ईएमई
 आई सी-31253 कर्नल (टी एस) गुना प्रकाश कृष्णन, ईएमई

आई सी-31606 कर्नल रविन्दर कुमार जैन, ईएमई
आई सी-32124 कर्नल निन्दरजीत सिंह चन्दोक, एएससी
(एफआईओ)

आई सी-32780 कर्नल राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, बिहार
आई सी-33016 कर्नल (टी एस) आदित्य कुमार पाण्डे, मैक इन्फैन्ट्री
आई सी-33176 कर्नल (टी एस) जगदीश सिंह गिल, एओसी
आई सी-33394 कर्नल (टी एस) यशवन्त कुमार सिंह, एसी
आई सी-33753 कर्नल (टी एस) चन्द्र नाथ चक्रवर्ती, राजपूत
आई सी-33791 कर्नल सुरेन्द्र सिंह, जैक एलआई
आई सी-34477 कर्नल (टी एस) अर्जुन सिंह अधिकारी, सिख
आई सी-35639 कर्नल (टी एस) हरदेव कृष्ण कौशल, एएससी
आई सी-35866 कर्नल (टी एस) तपन मोहन पॉल, ईएमई
आई सी-35957 कर्नल (टी एस) ईश्वर सिंह बिरमन, एओसी
आई सी-36350 कर्नल सुनिल कुमार आनन्द, गढ़वाल रिफ
आई सी-36449 कर्नल कृष्ण गोपाल चटर्जी, 4 जीआर
आई सी-38008 कर्नल (टी एस) गुरदेव सिंह मुलतानी, आर्टी
वी-310 कर्नल ओंकार सिंह भाटी, आरवीसी
एस एल-3374 ले. कर्नल चन्द्र लोहानी यादव, इन्जीनियर्स
एस एल-3691 ले. कर्नल वेंकटनाारायणन सुबाकृष्णा, इन्जीनियर्स
एस एल-3726 ले. कर्नल नाचिमथु सक्थीवल, सिगनल्स
एस एल-3803 मेजर महेन्द्र सिंह राजबीर, ईएमई

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 सितम्बर 2005 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना (स्थायी कमीशन)

आई सी-25075 कर्नल राज कुमार शर्मा, आर्टी
आई सी-25418 कर्नल जीतपाल सिंह रावत, इन्जीनियर्स
आई सी-25443 कर्नल प्रसन्ता प्रतिम अग्रवाल, जैक एल आई
आई सी-25477 कर्नल (टी एस) मनबीर सिंह, ईएमई
आई सी-25603 कर्नल (टी एस) सिधार्थ बोस, आर्टी
आई सी-25889 कर्नल बिक्रम देव सिंह गिल, एसी
आई सी-25926 कर्नल (टी एस) कमल शेखर मेहता, बिहार
आई सी-25930 कर्नल जीत कुमार जोष, आर्टी
आई सी-27040 कर्नल सतीश कुमार सेठी, मैक इन्फैन्ट्री
आई सी-27128 कर्नल अशोक टंडन, जैक रिफ

आई सी-27207 कर्नल अमरपाल सिंह मुलतानी, ईएमई
आई सी-30041 कर्नल (टी एस) सुरिन्दर सिंह, एएससी
आई सी-30177 कर्नल जेवियर परेरा, एडी आर्टी
आई सी-30179 कर्नल (टी एस) तरूण चेटर्जी, जैक एलआई
आई सी-30199 कर्नल प्रदीप रंगाराव येदेकर, आर्टी
आई सी-30661 कर्नल अजय राज सिंह पन्वर, ईसी
आई सी-31272 कर्नल (टी एस) हरिश चन्द्र चतुर्वेदी, ईएमई
आई सी-31733 कर्नल विजय कुमार मल्होत्रा, आर्टी
आई सी-32746 कर्नल कुमार सुब्रामनियन, आर्टी
आई सी-32755 कर्नल (टी एस) पार्था सारथी कार, सिख
आई सी-33146 कर्नल (टी एस) कृष्ण गोपाल थापा, सिख
आई सी-33310 कर्नल अमर वीर सिंह घोमान, सिख एलआई
आई सी-33351 कर्नल (टी एस) रामदेव पिल्ले, एओसी
आई सी-33715 कर्नल (टी एस) परिकक्षित शर्मा, इन्जीनियर्स
आई सी-33731 कर्नल राजेन गुर्ग, एडी आर्टी
आई सी-34300 कर्नल लंका सूर्यनारायणा मूर्ति, ईएमई
आई सी-34734 कर्नल (टी एस) महेश चन्द्र त्रिपाठी, ईएमई
आई सी-35058 कर्नल (टी एस) अनूप सिंह आरोड़ा, इन्जीनियर्स
आई सी-35525 कर्नल (टी एस) उमेश चन्द्र सिंह रावत, 9 जी आर
आई सी-35539 कर्नल (टी एस) ओम प्रकाश यादव, एओसी
आई सी-36427 कर्नल अरूण विश्वनाथ व्यास, इन्जीनियर्स
आई सी-36458 कर्नल (टी एस) वेद प्रकाश, आर्टी
आई सी-36596 कर्नल (टी एस) देवेन्द्र कुमार, इन्जीनियर्स
एस एल-2862 ले. कर्नल राज सिंह, सिगनल्स
एस एल-2493 ले. कर्नल राम आशरे मिश्रा, ईसी
एस एल-3332 ले. कर्नल रघुनाथ सिंह, आरओ
एस एल-3552 ले. कर्नल गुरदेव सिंह, सिगनल्स
एस एल-3664 ले. कर्नल सुरेश प्रसाद सिंह, आरओ
एस एल-3727 ले. कर्नल गुरबचन सिंह थुंग, ईएमई
एस एल-3844 ले. कर्नल अनिरुध उत्तम, ईएमई

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 अक्टूबर 2005 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना (स्थायी कमीशन)

आई सी-25210 कर्नल राजीव शर्मा, आर्टी
आई सी-25474 कर्नल (टी एस) राजन दत्ता, आर्टी

आई सी-25588 कर्नल (टी एस) सुरेश रामत्री, एओसी
 आई सी-25811 कर्नल देविन्दर सिंह सिधू, इन्जीनियर्स
 आई सी-25857 कर्नल विजय कुमार सिंह, 1 जीआर
 आई सी-27020 कर्नल जोगिन्दर कुमार मेन्दीरता, सिख एलआई
 आई सी-27061 कर्नल (टी एस) विजय कुमार सिंह, 1 जीआर
 आई सी-27116 कर्नल (टी एस) मुलकजीत सिंह संधू, कुमाउँ
 आई सी-27252 कर्नल (टी एस) बलविन्दर सिंह, सिगनल्स
 आई सी-27337 कर्नल बापू प्रसाद, आर्टी
 आई सी-30086 कर्नल (टी एस) हरी गोपाल सिंह यादव, एडी आर्टी
 आई सी-30170 कर्नल सुरजीत सिंह, जाट
 आई सी-30187 कर्नल अनूप कुमार चोपड़ा आर्टी,
 आई सी-31239 कर्नल (टी एस) सुरजीत सिंह तुरना, ईएमई
 आई सी-31269 कर्नल (टी एस) रमेश सिंह, ईएमई
 आई सी-31630 कर्नल (टी एस) सरवेश कुमार सिंह, ईसी
 आई सी-31985 कर्नल (टी एस) सरबजीत सिंह, इजीनियर्स
 आई सी-32923 कर्नल (टी एस) महेन्द्र प्रताप छिब्बर, आर्टी
 आई सी-33447 ले. कर्नल गुरिन्दर जीत सिंह, एसी
 आई सी-33475 कर्नल शरद सेठी, आर्टी
 आई सी-33822 कर्नल (टी एस) रमेश चन्द्र सैनी, एडी आर्टी
 आई सी-34673 कर्नल प्रमोदकुमार ब्रह्मदत्त सूरी, इजीनियर्स
 आई सी-35031 कर्नल लक्ष्मी नारायण शर्मा, सिगनल्स
 आई सी-36001 कर्नल (टी एस) मुकेश आनन्द, आर्टी
 आई सी-36024 कर्नल मनोतोश दत्ता, इजीनियर्स
 आई सी-36097 कर्नल (टी एस) राजेन्दर कुमार, 4 जीआर
 आई सी-36151 कर्नल (टी एस) शिवेश चन्द्र झा, जैक रिफ
 आई सी-36174 कर्नल (टी एस) गुरप्रीत सिंह, आर्टी
 आई सी-36389 कर्नल विजय कुमार वर्मा, एसी
 आई सी-36505 कर्नल (टी एस) बलभद्र दिक्षित, इजीनियर्स
 आई सी-36575 कर्नल (टी एस) सत्येन्द्र कुमार सिंह, एएससी
 एस एल-2445 कर्नल (टी एस) बी एस गिल, क्यूएम
 एस एल-2835 ले. कर्नल कैलाश चन्द्र घोवर, इजीनियर्स
 एस एल-3473 ले. कर्नल प्रीतम सिंह, इजीनियर्स
 एस एल-3531 ले. कर्नल हरबंस सिंह, क्यूएम
 एस एल-3606 ले. कर्नल राम कृष्ण शर्मा, ईएमई

एस एल-3847 ले. कर्नल एस एस थापा, क्यूएम

आर सी-389 मेजर ए पी पालंगप्पा, सिगनल्स

आर सी-852 मेजर बलदेव सिंह, सिख

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 नवम्बर 2005 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं।

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आई सी-25101 कर्नल गुरबक्श सिंह, सिख एलआई

आई सी-25117 कर्नल (टी एस) अभय कुमार प्रसाद, आर्टी

आई सी-25452 कर्नल जय चन्द कनोरिया, एसी

आई सी-25896 कर्नल सुरेश कुमार राठी, एओसी

आई सी-27306 कर्नल सुदर्शन सिंह रावत, बिहार

आई सी-30026 कर्नल रामस्वरूप शान्तीस्वरूप वासूदेव, आर्टी

आई सी-30453 कर्नल तेजिन्दर सिंह बेदी, एडी आर्टी

आई सी-30720 कर्नल हरदीप सिंह ग्रेवाल, मद्रास

आई सी-30895 कर्नल सुब्रामनियन सरकार, जैक एलआई

आई सी-31280 कर्नल (टी एस) राजिन्दर कुमार चौधर, ईसी

आई सी-33242 कर्नल हरजिन्दर सिंह, आसाम

आई सी-33476 कर्नल सुरेश चन्दर गुलाटी, सिख

आई सी-33671 कर्नल सुधीर सैनी, सिगनल्स

आई सी-33859 कर्नल ब्रजेश प्रताप सिंह, जैग

आई सी-34658 कर्नल सुरेश कुमार, एडी आर्टी

आई सी-34704 कर्नल जगदीश चन्द्र मेहता, सिगनल्स

आई सी-36065 कर्नल दिलबाग सिंह रंधावा, मद्रास

आई सी-36090 कर्नल एडविन चार्ल्स हेनरी फंसिस, मराठा एलआई

आई सी-36199 कर्नल लाल भूषण मिश्रा, 5 जीआर

आई सी-36325 कर्नल (टी एस) रविन्दर सिंह ढिल्लौ, एसी

आई सी-36333 कर्नल (टी एस) ईल्लयाकल कमलम सुधाकरन, ईएमई

आई सी-36405 कर्नल (टी एस) सतनाम सिंह चौधरी, आर्टी

आई सी-36474 कर्नल (टी एस) अशोक कुमार सूद, एएससी

आई सी-36529 कर्नल आजाद सिंह शेरावत, कुमाउँ

आई सी-36541 कर्नल जय प्रकाश, सिगनल्स

आई सी-36631 कर्नल सतीश रामचन्द्रा परांजपई, सिगनल्स

एस एल-2687 ले. कर्नल जसवंत सिंह, आरओ

एस एल-3035 ले. कर्नल रतन लाल शर्मा, आरओ
 एस एल-3276 ले. कर्नल गनपथी मनाकावयू आयनार, ईएमई
 एस एल-3296 ले. कर्नल रघुबीर सिंह, ईएमई
 एस एल-3301 ले. कर्नल सुरिन्दर सिंह, आईसी
 एस एल-3357 ले. कर्नल बलविन्दर सिंह, एडी आर्टी
 एस एल-3417 मेजर रामेश्वर नायक, ईएमई
 एस एल-3505 ले. कर्नल रणजीत सिंह, सिगनल्स
 एस एल-3653 ले. कर्नल जय भगवान सिंह, आरओ
 एस एल-3757 ले. कर्नल पियारा सिंह, क्यूएम
 आर सी-728 मेजर वी शिवादासन, मद्रास
 एस एल-896 मेजर जोशन सिंह, एसी

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 दिसम्बर 2005 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-25152 कर्नल रविन्द्र दिक्षित, आर्टी
 आईसी-25421 कर्नल जुगवीर सिंह, एसी
 आईसी-25430 कर्नल अवतार सिंह, कुमाऊँ
 आईसी-25513 कर्नल बिरहमपाल सिंह सिरौही, एसी
 आईसी-25570 कर्नल (टी एस) राजिन्दर सिंह, गार्डस
 आईसी-25638 कर्नल अमरजीत सिंह, सिगनल्स
 आईसी-25933 कर्नल जसबीर सिंह निर्मल, नागा
 आईसी-27702 कर्नल (टीएस) अशोक कुमार मल्होत्रा
 आईसी-27045 कर्नल (टीएस) चन्द्र कान्ता बोरा, ग्रैनेडियर्स
 आईसी-27050 कर्नल अबिनाश कोलें, माहार
 आईसी-27209 कर्नल (टीएस) राजिन्द्र सिंह उदावत, एसी
 आईसी-27503 कर्नल (टीएस) राजपाल सिंह कुण्डु डोगरा
 आईसी-27692 कर्नल इन्दर वीर सिंह, आर्टी
 आईसी-27754 कर्नल विनय कुमार माथुर, मद्रास
 आईसी-27843 कर्नल (टीएस) सुरेश चन्द्र त्यागी, इंजी.
 आईसी-30038 कर्नल सुरेश कुमार, आर्टी
 आईसी-30129 कर्नल (टीएस) श्रिश प्रभाकर केलकर, जैक एल आई
 आईसी-30307 कर्नल बालकृष्ण कालिधर, सिगनल्स

आईसी-30423 कर्नल (टीएस) माहिन्दर सिंह मलिक, कुमाऊँ
 आईसी-30928 कर्नल (टीएस) कृष्ण खेर, आर्टी
 आईसी-32850 कर्नल गुरमंजीत सिंह संधू, पारा
 आईसी-33020 कर्नल शुजा अहमद कुरेशी
 आईसी-33081 कर्नल उडयान मुस्तफी, राज रिफ
 आईसी-33213 कर्नल (टीएस) गुरुदर्शन सिंह संधू, आर्टी
 आईसी-33513 कर्नल अनिल कुमार तुली, आर्टी
 आईसी-33685 कर्नल (टीएस) तेजिन्दर सिंह, सिख
 आईसी-33829 कर्नल (टीएस) विश्वान्या पिल्ले कुट्टन पिल्ले, सिगनल्स
 आईसी-33835 कर्नल (टीएस) तेजिन्दर सिंह, 5-जीआर
 आईसी-34285 कर्नल (टीएस) सुरिन्दरबीर सिंह, सिगनल्स
 आईसी-34540 कर्नल (टीएस) लाडू किशोर अचारी, राजपूत
 आईसी-34669 कर्नल (टीएस) जयकृष्णन पदमनाभन, इंजी.
 आईसी-34693 कर्नल (टीएस) मनीष सुशीलचन्द्र मेहता, ईएमई
 आईसी-34744 कर्नल (टीएस) अविनाश अम्बादास पुषताके, इंजीनियर्स
 आईसी-34824 कर्नल कुन्जा बाबू सिंघा, आर्टी
 आईसी-35045 कर्नल सन्नी अईकारा वारके, ईएमई
 आईसी-35128 कर्नल (टीएस) भगवान सिंह छिब, एओसी
 आईसी-35348 कर्नल (टीएस) नरिन्दर कुमार, एएससी
 आईसी-35389 कर्नल शिशिर कुमार, ईएमई
 आईसी-35416 कर्नल (टीएस) मोधुर लक्ष्मीनारायण नरसिम्हा, इंजी.
 आईसी-35447 कर्नल (टीएस) हरीश चन्द्र पाण्डे, सिगनल्स
 आईसी-35476 कर्नल (टीएस) अवतार सिंह, जैक एल आई
 आईसी-35531 कर्नल (टीएस) प्रमोद कुमार तमंग, जाट
 आईसी-35579 कर्नल (टीएस) सतीश चन्द्र सैनी, गार्डस
 आईसी-35604 कर्नल (टीएस) विजय सिंह, ग्रैनेडियर्स
 आईसी-35651 कर्नल (टीएस) एम जे जोसफ, एएससी
 आईसी-36020 कर्नल जयवन्तराव लालसाहेब पटनकर, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-36209 कर्नल विरेन्द्र पाल सिंह, मराठा एलआई
 आईसी-36212 कर्नल राकेश कुमार मोंगा, इंजी.
 आईसी-36248 कर्नल बिरेन्द्र सिंह सिंहोय, 4-जीआर
 आईसी-36274 कर्नल सरदूल सिंह, आर्टी

आईसी-36281	कर्नल जनार्दन भट्टाचार्यजी, एओसी	आरसी-742	मेजर मोहन सिंह सोहल, एडी आर्टी
आईसी-36345	कर्नल (टीएस) मोहन कृष्ण पान्डे, जाट	आरसी-746	मेजर टी टी सोनावाने, ईएमई
आईसी-36407	ले. कर्नल कुमार श्रीधर हारशे, एडी आर्टी	आरसी-747	मेजर डी प्रकाश, इंजीनियर्स
आईसी-36414	कर्नल (टीएस) जसजीत सिंह रंधावा, एसी	आरसी-748	मेजर बसन्त सिंह भारद्वाज, डोगरा
आईसी-36431	कर्नल (टीएस) सुरेन्द्र सिंह डोगरा, एसी	आरसी-750	मेजर पदम बहादुर गुरंग, 11 जीआर
आईसी-36467	कर्नल (टीएस) शेलेन्द्र कुमार पालीवाल, आर्टी	आरसी-751	मेजर पी वेनूगोपाल, ईएमई
आईसी-36487	कर्नल (टीएस) सुरेन्द्र कुमार, सिगनल्स	आरसी-752	मेजर विनोद कुमार शर्मा, ईएमई
आईसी-36608	कर्नल (टीएस) लाईसामी विन्सेंट कुलन्डी राज, आर्टी	आरसी-753	मेजर पूरण सिंह, ईएमई
आईसी-36613	कर्नल (टीएस) अवतार कृष्ण, डोगरा	आरसी-754	मेजर नलिनक्शन चिन्गोलि, इंजीनियर्स
आईसी-36628	कर्नल (टीएस) आशीश दत्ता, ईएमई	आरसी-756	मेजर हरबंस दत्त थकियाल, जैक रिफ
आईसी-36997	कर्नल (टीएस) जसवंत कुमार, सिगनल्स	आरसी-759	मेजर के जनार्दन, ईएमई
आईसी-38209	कर्नल (टीएस) मेघा सिंह, सिगनल्स	आरसी-766	मेजर यदुवेन्द्र सिंह, पंजाब
आईसी-38783	ले. कर्नल मोहिन्दर जीत सिंह, एओसी	आरसी-767	मेजर बासुदेव सिंह गुलेरिया, जैक रिफ
आईसी-39014	ले. कर्नल रमेश बक्शी, एओसी	आरसी-768	मेजर तेज बीर सुब्बा, 11-जीआर
एसएल-2595	मेजर तरलोचन दत्त, आरओ	आरसी-769	मेजर गुरचरण सिंह भुल्लर, पंजाब
एसएल-2800	ले. कर्नल चमन लाल भगोत्रा, आरओ	आरसी-771	मेजर डी बी राव, सिगनल्स
एसएल-3058	ले. कर्नल तरलोचन सिंह, सिगनल्स	आरसी-775	मेजर के सुशीलन, ईएमई
एसएल-3104	ले. कर्नल एम पुरुषोत्तमन, क्यूएम	आरसी-776	मेजर गोविन्द सिंह उन्नीयाल, ईएमई
एसएल-3145	ले. कर्नल ओ एम प्रकाश, आरओ	आरसी-777	मेजर राम कुमार, ईएमई
एसएल-3155	ले. कर्नल सुखदेव शर्मा, आरओ	आरसी-778	मेजर रामेश्वर यादव, ईएमई
एसएल-3217	ले. कर्नल सत्य प्रकाश मिश्र, सिगनल्स	आरसी-779	मेजर उदय बिहारी के, ईएमई
एसएल-3273	ले. कर्नल नवल सिंह, ईएमई	आरसी-780	मेजर सूर्य कान्त, एडी आर्टी
एसएल-3305	ले. कर्नल श्री कृष्ण एहलावत, आईसी	आरसी-781	मेजर के रोबिन्द्रो सिंह, आर्टी
एसएल-3465	ले. कर्नल किशोर सिंह शेखावत, क्यूएम	आरसी-782	मेजर एस जयकर, इन्ट कोर
एसएल-3620	ले. कर्नल दल चन्द, ईएमई	आरसी-783	मेजर अन्जनला कुमार बेनर्जी, सिगनल्स
एसएल-3633	ले. कर्नल मुनशा सिंह, ईएमई	आरसी-785	मेजर अम्ब्रीश प्रसाद दूबे, सिगनल्स
एसएल-3722	ले. कर्नल सन्तोष राज, ईएमई	आरसी-789	मेजर कैलाश मिश्रा, ईएमई
आरसी-730	मेजर जसबीर सिंह, एडी आर्टी	आरसी-790	मेजर बिशन दास चौधरी, डोगरा
आरसी-733	मेजर बी शोभार्थ, इंजी.	आरसी-791	मेजर बिरेन्द्र सिंह, आर्टी
आरसी-738	मेजर जी विजय कुमार, इंजीनियर्स	आरसी-792	मेजर गुरदीप सिंह, सिगनल्स
आरसी-739	मेजर मनु शर्मा, आसाम	आरसी-793	मेजर राम सिंह, चौहान, डोगरा
आरसी-740	मेजर बस्ती राम, आर्टी	आरसी-794	मेजर मुप्पल्ला रमेश बाबू, इंजीनियर्स
आरसी-741	मेजर शनमुगम विजय कुमार, इंजीनियर्स	आरसी-799	मेजर प्रकाश चन्द आजाद, एसी
		आरसी-800	मेजर नरेन्द्र पाल सिंह, ईएमई

- आरसी-801 मेजर बाली राम राय, एएससी
 आरसी-803 मेजर मंजीत सिंह, ईएमई
 आरसी-804 मेजर हरी ओम प्रकाश शर्मा, ईएमई
 आरसी-805 मेजर जसबीर सिंह, आर्टी
 आरसी-806 मेजर रणजीत सिंह, एसी

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 28 फरवरी 2006 से उन की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

- आईसी-25714 कर्नल अरविन्द कुमार मल्होत्रा, पंजाब
 आईसी-25975 कर्नल (टीएस) अरूण मुनास्वामी तजारे, महार
 आईसी-27036 कर्नल (टीएस) प्रकाश राजाराम जोशी, महार
 आईसी-27230 कर्नल राजेन्द्र सिंह भण्डारी, आर्टी
 आईसी-27280 ले. कर्नल सुब्रमनियम इलागोवन, इंजीनियर्स
 आईसी-27293 कर्नल (टीएस) सुरिन्द्र सिंह यादव, इंजीनियर्स
 आईसी-27620 कर्नल (टीएस) नरेन्द्र पाल सिंह, सिग्नल्स
 आईसी-27624 कर्नल मनमोहन सिंह तंवर, आर्टी
 आईसी-27691 कर्नल श्रीनिवासन अमूधन, आर्टी
 आईसी-27799 कर्नल (टीएस) नरेन्द्र मोहन कोहली, एडी आर्टी
 आईसी-27839 कर्नल (टीएस) प्रीतम सिंह, इंजीनियर्स
 आईसी-30083 कर्नल (टीएस) यश रयान, एसी
 आईसी-30209 कर्नल (टीएस) कृष्ण पाल शर्मा, आर्टी
 आईसी-30630 कर्नल (टीएस) कृष्ण बहादुर प्रधान, ईसी
 आईसी-31153 कर्नल (टीएस) विवेक हेगड़े, आसाम
 आईसी-31432 ले. कर्नल गुरमीत सिंह सन्धू, आर्टी
 आईसी-31959 ले. कर्नल कासुकुर्थी प्रसाद, ईएमई
 आईसी-32670 कर्नल (टीएस) उदय प्रताप सिंह, ईसी
 आईसी-32870 कर्नल (टीएस) हरीश चन्द्र जोशी, महार
 आईसी-32912 कर्नल प्रताप मोहन शर्मा, जाट
 आईसी-33330 ले. कर्नल शिव कुमार मिश्रा, मैक इन्फैन्ट्री
 आईसी-33514 कर्नल कनवर युद्धवीर सिंह बैरारिया, आर्टी
 आईसी-33758 कर्नल (टीएस) मनोरन्जन सासमल, सिग्नल्स
 आईसी-34531 कर्नल (टीएस) अशोक माल, कुमाऊं
 आईसी-34539 कर्नल (टीएस) सी पी रामाचन्द्रन, आर्टी
 आईसी-34801 कर्नल सत्या नारायण सिंह, एएससी
 आईसी-34981 कर्नल (टीएस) इकबाल सिंह, गार्ड्स

- आईसी-35325 ले. कर्नल शिव दत्त गुरूंग, आर्टी
 आईसी-35456 कर्नल (टी एस) सुरेश कुमार श्रीवास्तव, इंजीनियर्स
 आईसी-3552 कर्नल (टीएस) अशोक कुमार यादव, आर्टी
 आईसी-35795 कर्नल (टीएस) अशोक कुमार सिंह, सिग्नल्स
 आईसी-36012 कर्नल हरदयाल सिंह रंधावा, आर्टी
 आईसी-36015 कर्नल सुदर्शन कुमार, एसी
 आईसी-36121 कर्नल सतचित्त कुमार बासु, ईएमई
 आईसी-36133 ले. कर्नल (टीएस) दीपक कुमार भट्टाचार्य, इंजीनियर्स
 आईसी-36193 कर्नल मीनाक्षी सुन्दर मुथुस्वामी, ईएमई
 आईसी-36205 कर्नल बृज मोहन शर्मा, एओसी
 आईसी-36447 कर्नल (टीएस) रमेश कुमार भारद्वाज, 3 जीआर
 आईसी-36533 कर्नल चन्द्रामोहनन उन्नीतन किनरुविलमेकतिल
 रामाकृष्णनन उन्नीतन, एडी आर्टी
 आईसी-38131 कर्नल नरेन्द्र कुमार यादव, एएससी
 आईसी-38164 ले. कर्नल नरेन्द्र पाल, आर्टी
 आईसी-38239 कर्नल (टीएस) भगवान किसन भौंडे, इंजीनियर्स
 आईसी-38426 ले. कर्नल निशान सिंह रन्धावा, एओसी
 आईसी-38504 ले. कर्नल पी एस राजू, राजपूत
 आईसी-38532 कर्नल (टीएस) प्रफुल्ल कुमार मोहन्ता, आर्टी
 आईसी-38544 कर्नल (टीएस) चेतन्या गोहेन, आर्टी
 एसएल-3488 ले. कर्नल पी बालासुब्रामनियन, सिग्नल्स
 एसएल-3577 ले. कर्नल केसर सिंह राव, क्यूएम
 एसएल-3701 ले. कर्नल जय सिंह कालीरामन, सिग्नल्स
 एसएल-3709 ले. कर्नल चैन सिंह, ईएमई
 एसएल-3848 ले. कर्नल शनगारा सिंह, ईएमई
 एसएल-3850 ले. कर्नल वेगी नौका राजू, सिग्नल्स
 एसएल-3341 ले. कर्नल मोहिन्द्र कुमार बराल, आरओ
 आरसी-866 मेजर भूप सिंह, एओसी

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मार्च 2006 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं:--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

- आईसी-25100 कर्नल अखौरी रंजन सिन्हा, असम
 आईसी-25852 कर्नल देविन्द्र सिंह, गार्ड्स
 आईसी-25928 कर्नल सतिन्द्रा सिंह, पैरा

आईसी-27199 कर्नल शीरीष विनायक कुलकर्णी आर्टी
 आईसी-27340 कर्नल (टीएस) योगेश कृष्ण शर्मा, ईएमई
 आईसी-27341 कर्नल जायालिंग पट्टरय्या हीरेमठ, गार्ड्स
 आईसी-27396 कर्नल (टीएस) गोपाल शरण, एडी आर्टी
 आईसी-27670 कर्नल अमरजीत सिंह सहोटा, एडी आर्टी
 आईसी-30174 कर्नल राजेन्द्रा जोशी, जाट
 आईसी-30776 कर्नल (टीएस) जयदेव शर्मा, सिग्नल्स
 आईसी-30880 कर्नल (टीएस) रबिन्द्रा कुमार पटनायक, इंजीनियर्स
 आईसी-31296 कर्नल (टीएस) सीतारामा राव देशपाण्डे, ईएमई
 आईसी-31308 कर्नल (टीएस) विनोद कुमार बाही, ईएमई
 आईसी-31561 कर्नल (टीएस) जंग बहादुर सिंह, सिग्नल्स
 आईसी-31598 कर्नल (टीएस) अलागिरीसामी जगनारायणन्, ईएमई
 आईसी-31617 कर्नल (टीएस) बलवन्त सिंह थींध, ईएमई
 आईसी-31991 ले. कर्नल परदेशी शरद कुमार भाई लाल, ईएमई
 आईसी-32856 कर्नल फिरोज़ बी अल्ला वली, आर्टी
 आईसी-33025 कर्नल सुरिन्द्र कुमार मेहता, 1 जीआर
 आईसी-33046 कर्नल विनोद थोमस, मराठा एलआई
 आईसी-33795 ले. कर्नल अरुलानंदम पाल थोमस सेलवाकुमार, इंजीनियर्स

आईसी-34948 कर्नल भूषण शंकप्पा हेगड़, एससी
 आईसी-35071 कर्नल (टीएस) प्रताप सिंह ठाकुर, सिग्नल्स
 आईसी-35175 कर्नल (टीएस) कमल लाल छेत्री, एससी
 आईसी-35409 ले. कर्नल हरगोपाल वोहरा, इंजीनियर्स
 आईसी-35619 कर्नल स्वर्ण सिंह पठानिया, सिख
 आईसी-35653 कर्नल मोहम्मद मकबूल शाह, मराठा एलआई
 आईसी-35701 कर्नल (टीएस) धर्मवीर देशवाल, एससी
 आईसी-35806 कर्नल (टीएस) बलराम मंडल, ईएमई
 आईसी-35880 कर्नल (टीएस) विजय कुमार भण्डारी, ईएमई
 आईसी-36324 कर्नल (टीएस) अशोक कुमार बक्शी, राज राईफल
 आईसी-36338 कर्नल (टीएस) सजन सिंह रामकुमार यादव, आर्टी
 आईसी-36461 कर्नल (टीएस) हरिन्द्र सिंह चौहान, एओसी
 आईसी-36539 कर्नल दर्शन कुमार सलवान, राजपूत
 आईसी-36559 कर्नल (टीएस) रामकुमार राणा, मराठा एलआई

आईसी-36609 कर्नल (टीएस) दिलिप दीनानाथ कुलकर्णी, मराठा एलआई

आईसी-36647 कर्नल वल्हाप्यालील मथाई विसांथियोसिस, सिग्नल्स
 आईसी-36884 कर्नल (टीएस) कमर अमहद, ईएमई
 आईसी-36987 कर्नल (टीएस) अतुल कुमार आनंद, इंजीनियर्स
 आईसी-38473 कर्नल जगदीश चन्द व्यास, एओसी
 एसएल-2735 ले. कर्नल कृपाल सिंह डोगरा, एपीटीसी
 एसएल-2954 ले. कर्नल विष्णु शिंदे, इंजीनियर्स
 एसएल-3144 ले. कर्नल वसंत बकल, आरओ
 एसएल-3198 ले. कर्नल निरपाल सिंह ग्रेवाल, इंजीनियर्स
 एसएल-3600 ले. कर्नल खेम सिंह हुंडल, सिग्नल्स
 एसएल-3614 ले. कर्नल अमरीक सिंह, ईएमई
 एसएल-3615 ले. कर्नल हरदीप सिंह, ईएमई
 एसएल-3637 ले. कर्नल बिपिन बिहारी ओझा, सिग्नल्स
 एसएल-3698 ले. कर्नल तेजभान, इंजीनियर्स
 एसएल-3796 ले. कर्नल जुगेन्द्र सिंह वर्मा, आरओ
 एसएल-3859 ले. कर्नल सुखदेव सिंह, इंजीनियर्स
 आरसी-895 मेजर जगदीप सिंह, इंजीनियर्स

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 30 अप्रैल 2006 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-25823 कर्नल (टीएस) राज कुमार सिंह, ईएमई
 आईसी-25905 कर्नल (टीएस) रंजन कुमार लिखि, आर्टी
 आईसी-27400 कर्नल (टीएस) प्रकाश कुमार मिश्रा, सिग्नल्स
 आईसी-27688 कर्नल मुकुंद केशव पंडित, आर्टी
 आईसी-27983 कर्नल (टीएस) विनोद कुमार कोछर, एसी
 आईसी-30115 कर्नल विजय सामूल लाल, राजपूत
 आईसी-30232 कर्नल (टीएस) विजय कुमार प्रभाकर, एओसी
 आईसी-30297 कर्नल (टीएस) नागराज श्रीकान्तैय, इंजीनियर्स
 आईसी-30611 कर्नल (टीएस) दर्शन सिंह, ईसी
 आईसी-30888 कर्नल (टीएस) नरेन्द्र पाल, डोगरा

आईसी-30902 कर्नल (टीएस) अमर सिंह, जैक रिफ
आईसी-31590 कर्नल (टीएस) दिनेश चन्द्र मिश्रा, इन्जीनियर्स
आईसी-31960 कर्नल (टीएस) बेबी मैथ्यू पुलिकोटिल्ल जार्ज, सिग्नल्स

आईसी-32871 कर्नल (टीएस) रवि प्रकाश शर्मा, जैक रिफ
आईसी-33471 कर्नल अरुण कुमार, जाट
आईसी-33508 कर्नल (टीएस) अशोक आनंद कानेटकर, एससी
आईसी-34160 कर्नल (टीएस) कृष्ण चन्द, मद्रास
आईसी-34696 कर्नल (टीएस) प्रेम सिंह, इन्जीनियर्स
आईसी-34886 कर्नल (टीएस) बलदेव सिंह कटोच, डोगरा
आईसी-35032 कर्नल (टीएस) खुमन लाल साहू, सिग्नल्स
आईसी-35771 कर्नल (टीएस) लक्ष्मी दत्त उपाध्याय, 11 जीआर
आईसी-35996 कर्नल हरदित सिंह, आर्टी
आईसी-36013 कर्नल (टीएस) अशोक चक्रवर्ती छिब्र, ईएमई
आईसी-36048 कर्नल (टीएस) उमेश कुन्थ गोपीनाथ, एडी, आर्टी
आईसी-36053 कर्नल (टीएस) इन्द्रजीत सिंह, आर्टी
आईसी-36162 कर्नल (टीएस) राम किशोर सेठ, सिग्नल्स
आईसी-36282 कर्नल (टीएस) महेन्द्र सिंह, राज रिफ
आईसी-36374 कर्नल (टीएस) अब्राहम हबी, आर्टी
आईसी-36401 कर्नल तोतापल्ली महेश कुमार, एससी
आईसी-36500 कर्नल (टीएस) अरविन्द मैत्रा, आर्टी
आईसी-36509 ले. कर्नल विनोद कुमार दूबे, इन्जीनियर्स
आईसी-37447 कर्नल (टीएस) अवदेश बिहारी द्विवेदी, ईएमई
आईसी-37535 ले. कर्नल राम किशोर सिंह, इन्जीनियर्स
आईसी-38395 कर्नल अर्जुन सिंह, आर्टी
आईसी-38534 कर्नल (टीएस) पी वी वरगीस, बिहार
आईसी-38560 कर्नल बलिनन्दर सिंह चौधरी, एओसी
एसएल-2796 ले. कर्नल अमरीक सिंह बाजवा, आरओ
एसएल-3192 ले. कर्नल राजा अहुजा, इन्जीनियर्स
एसएल-3246 ले. कर्नल शम शिविन्दर पाल सिंह, सिग्नल्स
एसएल-3333 ले. कर्नल शक्ति लाल, आरओ
एसएल-3467 ले. कर्नल दिलबाग सिंह बरीआना, सिग्नल्स
एसएल-3730 ले. कर्नल श्रवण कुमार, आर्टी
आरसी-847 मेजर कन्वर सिंह, कुमाऊँ
आरसी-855 मेजर गुलाम मोहियूदीन खान, इन्जीनियर्स
आरसी-893 मेजर योगराज चौहान, ग्रेनेडियर्स

राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 31 मई 2006 से उनकी साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर थल सेना से सहर्ष निवृत्ति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना स्थाई कमीशन

आईसी-25142 कर्नल सुरिन्द्र त्यागी, सिग्नल्स
आईसी-25554 कर्नल (टीएस) जुझार सिंह, आर्टी
आईसी-25870 कर्नल हरकृपाल सिंह तूर, एओसी
आईसी-25882 कर्नल प्रोमीत राय, असम
आईसी-27242 कर्नल अमरदीप सिंह, आर्टी
आईसी-27255 कर्नल (टीएस) श्रीकांत रैना, 9जीआर
आईसी-27254 कर्नल (टीएस) बिप्लव नन्दी मजुमदार, मेक इन्फैन्ट्री
आईसी-27375 कर्नल देवीन्द्र सिंह नरबन, आर्टी
आईसी-27382 कर्नल हेमन्त शर्मा, सिग्नल्स
आईसी-27815 कर्नल प्रवेश कुमार मिश्रा, एडी, आर्टी
आईसी-27856 कर्नल (टीएस) रत्न सिंह शेखावत, आर्टी
आईसी-30632 ले. कर्नल सबापथि चन्द्रशेखर, सिग्नल्स
आईसी-30768 कर्नल शंकर नारायण स्वामि, सिग्नल्स
आईसी-30907 कर्नल (टीएस) निर्भयी मरवाह, पैरा
आईसी-30945 कर्नल भरत सिंह बिष्ट, राज राईफल्स
आईसी-30964 कर्नल सुभाष चन्द्र चक्रवर्ती, एससी (एफआईओ)
आईसी-31159 कर्नल कोचुपरमपिल वरकई चेरियन, 11 जीआर
आईसी-31550 कर्नल रोमेश कृषेन कौल, सिग्नल्स
आईसी-31554 कर्नल (टीएस) रमेश कुमार, सिग्नल्स
आईसी-33574 कर्नल अंटेनी पानम प्राभविल वरगिस, 5 जीआर
आईसी-33771 कर्नल श्याम लाल कपूर, सिग्नल्स
आईसी-33787- कर्नल (टीएस) के वी राघव वारियर, एडी, आर्टी
आईसी-33596 ले. कर्नल बसन्त कुमार राव, जाकएलआई
आईसी-33978 कर्नल सतिन्द्र सिंह सोलंकी, एससी
आईसी-34706- कर्नल रामाकांत मोतीराम खैरे, सिग्नल्स
आईसी-34751 कर्नल (टीएस) राममोहन राव चुमादिशिंगु, इन्जीनियर्स
आईसी-34899 कर्नल ध्रुव चन्द कटोच, एसी
आईसी-35453 कर्नल (टीएस) ओम प्रकाश रामदयाल सेनी, इन्जीनियर्स
आईसी-36335 कर्नल (टीएस) दिनकर दत्तात्रय शिंदे, मद्रास

आईसी-36438 कर्नल (टीएस) अनील कपिल, 11 जीआर
 आईसी-36651 कर्नल (टीएस) ब्रह्म देव सिंह वसीर, सिग्नल्स
 आईसी-37074 कर्नल (टीएस) भाष्कर राय, ईएमई
 आईसी-37155 कर्नल (टीएस) पूर्णमल मीणा, इन्जीनियर्स
 आईसी-38040 कर्नल (टीएस) रविन्द्र सिंह, जाट
 आईसी-38048 कर्नल (टीएस) पलानीकुन्नाथील जौहन, मद्रास
 आईसी-38102 कर्नल (टीएस) जनार्दन प्रसाद, डोगरा
 आईसी-38281 कर्नल सुजन सिंह, आर्टी
 वी-325 कर्नल देवेन्द्र सिंह तेवतिया, आरवीसी
 वी-326 कर्नल रणधीर डे, आरवीसी
 एसएल-2558 कर्नल के मूर्थी एस आर, क्यूएम
 एसएल-2825 कर्नल चिरवतथ थारायिल कुन्ही मरक्कर, इन्जीनियर्स
 एसएल-3324 ले. कर्नल अत्तर सिंह हुड्डा, आरओ
 एसएल-3029 ले. कर्नल कमल सिंह थापा, आरओ
 एसएल-3337 ले. कर्नल के जार्ज वायडियन, आरओ
 एसएल-3471 ले. कर्नल कोसुरी लक्ष्मी नारायण, इंजीनियर्स
 एसएल-3500 ले. कर्नल रामाकृष्णन् थाझाथे वीतील, ईएमई
 एसएल-3630 ले. कर्नल एस सेनगोले, सिग्नल्स
 एसएल-3642 ले. कर्नल राम सिंह बाजर, एपीटीसी
 एसएल-3755 ले. कर्नल सीतारामैया नागुल, ईएमई
 एसएल-3831 ले. कर्नल वेंकटचलैय्या, इंजीनियर्स
 आरसी-815 मेजर गुरचरन सिंह पुरिया, एडी, आर्टी
 आरसी-907 मेजर उपेन्द्र नारायण सिंह, सिग्नल्स

सुनैना भारती
 उप निदेशक
 एमएस सेवा निवृत्ति

शुद्धि पत्र

सं. 283, दिनांक 21 मई 2007--इस मंत्रालय द्वारा 23 मार्च, 2007 को सं. ए-19018/1/2007/रक्षा(स्था. I/युप-I) के तहत जारी की गई अधिसूचना जिसमें श्री मौहम्मद गौहर हुसैन को रक्षा मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव नियुक्त किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

पैरा 1 की छठी पंक्ति में :

31 दिसम्बर, 2006 : के स्थान पर

30 जून 2007 : पढ़ें

एस के देव
 अवर सचिव

(सेना शाखा)

सं. 284, दिनांक 23 मई 2007

नियमित सेना

स्थाई आयोग

अनुपूरक

अनुशासनिक अधिनिर्णय : आईसी-38824, ए के सिंह, इन्फैन्ट्री

भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 23 दिसम्बर 2006 (भाग I खण्ड IV) (क्रम सं. 635) के शीर्षक नियमित सेना स्थाई आयोग एवं उप शीर्षक "अनुशासनिक अधिनिर्णय : आईसी-38824, ए के सिंह, इन्फैन्ट्री" में निम्नलिखित तथ्य अनुपूरक के तौर पर जोड़ा जाता है :--

"परिच्छेद (क), (ख) एवं (ग) के बाद दिनांक 28 जनवरी 2004 पढ़ा जाए"

अजय गोयल

उप निदेशक

एमएस-8ए

शुद्धि पत्र

सं. 285, दिनांक 21 मई 2007--भारत के राजपत्र दिनांक 18-24 नवंबर 2006 के भाग-I, खण्ड-4 के क्रम संख्या 575 में कृपया निम्नलिखित संशोधन किया जाए :--

के स्थान पर : श्री टी पाणिग्रही, संयुक्त निदेशक, एटीवीपी

पढ़ें : श्री टी पाणिग्रही, निदेशक

जतिन्द्रबीर सिंह

संयुक्त सचिव (प्रशि.)

एवं मुख्य प्रशासन अधिकारी

थल सेना शाखा

शुद्धि पत्र

सं. 286, दिनांक 23 मई 2007--राष्ट्रपति भारत के राजपत्र भाग-I खंड 4 में 03 फरवरी 2007 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना शीर्षक नियमित सेना/स्थायी कमीशन व उपशीर्षक ले. कर्नल से कर्नल (समकक्ष) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

ले. कर्नल (समकक्ष) से कर्नल (समकक्ष) पद पर

के स्थान पर :

1. वी एम नायक (एमआर-04543के), 07 दिसम्बर 2005 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03 अप्रैल 2005 से दी जाती है।

पढ़ा जाए :

1. वी एम नायक (एमआर-04543के), 03 दिसम्बर 2005 वेतन एवं पेंशन बिना कोई प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 03 अप्रैल 2005 से दी जाती है।

राजेश कामरान
ब्रिगेडियर

उप महानिदेशक स से चि से (कार्मिक)

शुद्धि पत्र

सं. 287, दिनांक 23 मई 2007--भारत के राजपत्र में दिनांक 20 जनवरी 2007 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक मेजर से ले. कर्नल के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र सं. में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के सामने : आईसी-46911 जल सिंह, एओसी

के लिए : 09 नवम्बर 2005

पढ़ा जाए : 07 नवम्बर 2005

शिव राम बैरवा
उप निदेशक
एमएस-8सी

सं. 288, दिनांक 23 मई 2007--

नियमित सेना

(अल्प सेवा आयोग)

ले. के पद पर

शुद्धि पत्र

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में दिनांक 06 मई 2006 को प्रकाशित अधिसूचना के शीर्षक "नियमित सेना (अल्प सेवा आयोग)" के अन्तर्गत उपशीर्षक "ले. के पद पर" के अन्तर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :--

तालिका के अन्तर्गत :--

के लिए : एसएस-41248वाई गुरव भटनागर, इन्फैन्ट्री

पढ़ें : एसएस-41248वाई गौरव भटनागर, इन्फैन्ट्री

एस के शर्मा
ले. कर्नल
सहायक सेना सचिव 8-बी

MINISTRY OF DEFENCE

(DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION)

New Delhi, the 9th June 2007

No. 266, dated 21st May 2007.—The President is pleased to make the following appointments:—

Shri Pramod Mohan Sadafule as temporary SSO-I at CQA (Met), Ichapur on probation for a period of one year w.e.f. 15 Feb 2006 (FN).

Shri Venkata Ratna Sudhakara Rao Kambala as temporary SSO-I at SQAE (A), Jabalpur on probation for a period of one year w.e.f. 27 Feb 2006 (FN).

Shri Kannan M as temporary SSO-I at CQA (L), Bangalore on probation for a period of one year w.e.f. 03 Jul 2006 (FN).

Shri Praphull Pankaj Chaurasia as temporary SSO-I at SQAE (L), Chennai on probation for a period of one year w.e.f. 22 Mar 2006 (FN).

Shri TK Varadarajan as temporary SSO-I at QAE (ME), Khamaria, Jabalpur on probation for a period of one year w.e.f. 01 June 2006 (FN).

Shri Uday Kumar Singh as temporary SSO-I at HQ DQA (M&E), Ichapur on probation for a period of one year w.e.f. 31 July 2006 (FN).

Shri Sanjay Sharma as temporary SSO-I at CQA (S), Secunderabad on probation for a period of one year w.e.f. 24 Mar 2006 (FN).

Shri Vikas Sharma as temporary SSO-I at SQAE (L), Bangalore on probation for a period of one year w.e.f. 24 Aug 2006 (FN).

Smt. Pushpa LN as temporary SSO-I at CQAE (WS), Mumbai on probation for a period of one year w.e.f. 26 Jul 2006 (FN).

Shri Dalapatirao T Krishnamraju as temporary SSO-I at SQAE (L&S), Chandigarh on probation for a period of one year w.e.f. 12 Apr 2006 (FN).

Shri Sunil Kumar Pandit as temporary SSO-I at HQ DQA (N), New Delhi on probation for a period of one year w.e.f. 09 May 2006 (FN).

Shri Purushottam De as temporary SSO-I at SQAE (GS), Mumbai on probation for a period of one year w.e.f. 07 Apr 2006 (FN).

Shri N Shanmugam as temporary SSO-I at CQA (GS), Kanpur on probation for a period of one year w.e.f. 05 Jun 2006 (FN).

Dr. Santosh Kumar Tiwari as temporary SSO-I at CQA (GS), Kanpur on probation for a period of one year w.e.f. 24 Apr 2006 (FN).

SUBHASH CHAND
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 267, dated 24th May 2007.—The President is pleased to make the following appointments under the provisions of SAI 3/S/70 as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

The undermentioned SSCOs is granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 06 Mar 04 with seniority for promotion from 06 Nov 99 but for increments of pay from 06 Mar 99 on relinquishing his SSC wef 06 Mar 04. His inter-se-seniority vis-a-vis SSCOs granted PC will, however, remain the same as allocated in GN for grant of SSC. New personal No. IC-56561F allotted to under mentioned SSCO may be inserted between IC-56217W and IC-56218Y as per SSC seniority.

SS No., IC No., Name and Arm/Service

SS-37690, IC-56561F Sajjan Singh Shekhawat, ASC

SRAVAN KUMAR

Col

Col MS-7

No. 268, dated 24th May 2007.—The President is pleased to make the following appointments:—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 10 Dec 2005)

The undermentioned Gentlemen Cadets of TES 06 Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 10 Dec 2005 under the provision of AI 3/99.

IC No., Name and Arm/Service

67736Y Manoj Negi, Engrs

67737F Lapalkar Parikshit Madhusudan, Engrs

67738K Karan Inder Singh Khangura, Sigs

67739M Pushpendra Tyagi, EME

67740F Anirudh Agarwal, Sigs

67741K Ravindra Singh, Engrs

67742M Vineet Sharma, Sigs

67743P Pranav Kumar Opal, Sigs

67744X Apurva Agrawal, Sigs

67745A Ashwini Kumar Dixit, Engrs

67746H Dilraj Bhinder, EME

67747L Raj Kumar Mishra, Sigs

67748N Nikhil Parmar, EME

67749W Thomas John Mani, Engrs

67750L Yogesh Singh, Engrs

67751N Vaseem Mushtaq Hiroli, Engrs

67752W Sandeep Jha, Engrs
 67753Y Amit Kumar Goyat, EME
 67754F Premnath O, EME
 67755K Shinde Sumeet Suryakant, Engrs
 67756M Vikas Chaturvedi, EME
 67757P Adit Bhatia, EME
 67758X Sameer Bansal, Engrs
 67759A Narender Singh Rathore, Engrs
 67760P Shahzeb Shabih, Engrs
 67761X Arvind Balachandran, Inf
 67762A Uday Bhan Dubey, Sigs
 67763H Shailender Singh Mann, Sigs
 67764L Chandramani Kumar, Sigs
 67765N Lalit Shankar Behra, Sigs
 67766W Pourush Arora, EME
 67767Y Manojit Sinha, Sigs
 67768F Akshay Singh Shekhawat, EME
 67769K Wamburkar Adish Sudhir, EME
 67770Y Sachin Siddharam Barhanpure, EME
 67771F Ashish Kumar Praharaj, EME
 67772K Abhinibesh Sharma, Sigs
 67773M Kartikeya Dobhal, Engrs
 67774P Ritesh Sanodiya, Sigs
 67775X Mohit Panwar, EME
 67776A Ranjeet Singh Tomar, EME
 67777H Sachin Ujjwal, Engrs
 67778L Manish Sobti, EME
 67779N Devesh Kotiyal, EME
 67780H Bhaskar Talwar, EME
 67781L Puneet Kumar Dwivedi, Sigs
 67782N Mushir Ahmad, Engrs
 67783W Mayank Kumar Joshi, EME
 67784Y Humnabadkar Ameiya Sanjiv, Engrs
 67785F Abhya Pratap Singh, EME
 67786K Sumit Bashera, Engrs
 67787M Vishal Thapar, Arty
 67788P Sandeep Singh, Engrs
 67789X Sehmi Manishsingh Manmohan Singh, Sigs
 67790M Alok Kumar Yadav, EME
 67791P Raj Verma, EME

67792X Suresh M, Engrs
 67793A Mohd Majid Kamal, EME
 67794H Tarun Madhup, Engrs
 67795L Abhilov Sharma, Sigs
 67796N Aveg Goel, EME
 67797W Marathe Mahesh Kumar Anand Rao, EME
 67798Y Kapil Dahiya, Sigs
 67799F Jatin Kumar, Engrs
 67800L David Pereira, EME
 67801N Gaurav Nayar, Engrs
 67802W James Sebastian, EME
 67803Y Pawan Kumar, EME
 67804F Grandhivenkata Ramesh Kumar, Engrs
 67805K Saurabh Hoon, Sigs
 67806M Ankur Yadav, EME
 67807P Abhishek Gupta, EME
 67808X Ankush Sharma, Sigs
 67809A Gaurav Saxena, Sigs
 67810P Ashish Sharma, Engrs
 67811X Shounak Kamat, Engrs
 67812A Madhusudan Nair, EME
 67813H Sachin Sinha, Engrs
 67814L Kunal Dhagat, Engrs
 67815N Manish Narayan, Engrs
 67816W Shashi, Engrs
 67817Y Suresh Chandra Sahu, EME
 67818F Dhruv Aswal, Sigs
 67819K Shinde Rohit Anand, Sigs
 67820Y Sane Abhijeet Deepak, Engrs
 67821F Saurav Roy, Engrs
 67822K Suraaj Shresht Ray Lala, Sigs
 67823M Abhik Das, EME
 67824P Ritesh Bhardwaj, Sigs

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt

The undermentioned Officers of SSC (NT)-79 Course has completed his Short Service Commission on probation for six months commencing from 19 Mar 2005. He is granted Short Service Commission in the rank of Lt for a period

of five years wef 19 Mar 2005 under the provisions of SAI 3/S/98 as amended:—

Auchin Deep Sharma (SS-41366M), AOC with seniority next below the Lt Tushar Chauhan (SS-41365K), Inf whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence notification published on 06 May 2006.

S K SHARMA
Lt Col
AMS-8B

No. 269, dated 21st May 2007.—The President has made the following appointments on his Honorary Personal Staff against the dates mentioned against each officer:—

Honorary Air ADC w.e.f. 01 Feb 2007

Air Marshal BN Gokhale, PVSM, AVSM, VM (11630) F(P)

Honorary Air ADC w.e.f. 01 Apr 2007

Air Marshal PS Ahluwalia, PVSM, AVSM & Bar VM, VSM (11631) F(P).

S D BANGA
Under Secy.

NAVY BRANCH

INTEGRATED HQrs—MOD (NAVY)

No. 270, dated 21st May 2007.—The President is pleased to appoint the following Personal Assistants of AFHQ Stenographers' Service as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) in the Pay Scale of Rs. 6,500-200-10,500/- on promotion on temporary basis w.e.f. 30 Nov 06 for a period upto 31.12.2006 or till availability of regular panel for promotion, whichever is earlier:—

- (a) Smt. Ved Raheja
- (b) Smt. Urmil
- (c) Smt. DK Khurana

2. Appointment of the abovementioned officers as Private Secretary is made under AFHQ Stenographers' Service Regulations, 2004 on the following conditions:—

- (a) The appointment is purely on temporary basis and can be terminated without notice for administrative reasons.
- (b) They will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will their service rendered on temporary basis reckon for seniority.

SHANKAR SINGH
Dy. Chief Administrative Officer (A)

No. 271, dated 21st May 2007.—The President is pleased to extend the appointment of Shri P. K. Malik, Principal

Private Secretary in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-, on ad-hoc basis for a further period from 01.01.2007 to 30.06.2007 or till regular Principal Private Secretary becomes available or until further orders, whichever is earlier.

S K DEB
Under Secy.

No. 272, dated 21st May 2007.—Consequent on his appointment as Additional Secretary in the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions), the services of Shri Shashi Kant Sharma, IAS (BH: 76), Additional Secretary, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions) w.e.f. 05.04.2007 (AN).

Consequent on premature repatriation, the services of Shri Ranjan Chatterjee, IAS (AM: 76), Joint Secretary, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Govt. of Meghalaya w.e.f. 31.03.2007 (AN).

S K DEB
Under Secy.

AIR BRANCH

No. 273, dated 24th May 2007.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers, who were granted Short Service Commission (on probation) wef the date as stated against their names:—

AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRICAL BRANCH)

Fg Offr Ms Puja Priya (28634) AE(L), Ms Meenu Sharma (28635) AE(L), Ms Nikheela Pamkar V (28636) AE(L), Ms Priyanka Choubey (28637) AE(L) wef 30 Jun 06.

The President is pleased to confirm the undermentioned Short Service Commission officers wef the date stated against their names:—

INDIAN AIR FORCE

Ex-Flt Cdts to be Fg Offr

ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr Suprita Kaur (28271), Namrita Kaur (28275) wef 18 Dec 04.

The President is pleased to confirm the undermentioned officers, who were granted Permanent Commission (on probation), wef 30 Jun 06. They are granted ante date wef the dates stated against their names:—

AERONAUTICAL ENGINEERING BRANCH

Fg Offr S Krishnadas (28362) AE(L), Guru Prasad R (29132) AE(L), Prashant Verma (28596) AE(M), Ajay Singh

Phogat (28626) AE(L), Dharmender Singh (29130) AE(M), Kuldeep Singh (28601) AE(M), SK Kakkar (28622) AE(L), SS Pillai (28607) AE(L), Gaurav Mathur (28610) AE(L), AK Vishwanath (29133) AE(L), VP Jayaraj (28612) AE(L), Saurav Bhandari (28628) AE(L), S Senthil Kumar (28621) AE(L), S Mahesh Kumar (28633) AE(L), PS Rathod (28599) AE(M), Harpreet Singh (28606) AE(L), Jibin Surendran (28619) AE(L), Uday Kumar TM (28618), AE(L), Kurup Ajesh (28600) AE(M), S Pavan (28632) AE(L), Kirpamoy Dey (29135) AE(L), KN Sandeep (28629) AE(L), BC Sekhar (29131) AE(M), U Ranjith (28616) AE(L), Neeraj Mishra (28595) AE(M), AS Parihar (28623) AE(L), Jani E (28609) AE(L), Sunil Tyagi (28630) AE(L), Rakesh Anand S (28604) AE(L), Pote Uday Pramodrao (28615) AE(L), PK Sharma (28598) AE(M), Birender Singh (28611) AE(L), SG Magotra (28627) AE(L), Prabhu R (28602) AE(M), K Rakesh (28605) AE(L), Vinu Varghese (28620) AE(L), Kiran KL (28625) AE(L), Manjeet Choudhary (28608) AE(L), Amit Kumar (28631) AE(L), Antony Davis C (28603) AE(M), Rajesh M (28614) AE(L), CSVK Naidu (28613) AE(L), Pramod Kumar (28624) AE(L), Sushil Kumar (28597) AE(M), Samiran Jana (28617) AE(L) ante date wef 30 Jun 04.

N VIJAY KUMAR
Wg Cdr
JDPO-3(D)

No. 274, dated 21st May 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Susheel Kumar (JC-266694P), 17 Feb 2007/1 Oct 2006*

Nb Sub Harbans Singh (JC-267433N), 02 Feb 2007/01 Oct 2006*

Nb Sub Suryawans Choudhary (JC-265537W), 08 Feb 2007/01 Nov 2006*

Nb Sub Jaswant Singh Champawat (JC-265281Y), 20 Sep 2006/01 July 2006*

Nb Sub Beant Singh (JC-266353K), 30 Dec 2006/01 Oct 2006*

Nb Sub Kabal Singh (JC-266984M), 26 Dec 2006/01 Oct 2006*

Nb Sub Subhash Chander (JC-266067H), 15 Nov 2006/01 Oct 2006*

Nb Sub Bahadur Singh (JC-265203F), 14 Nov 2006/01 Jun 2006*

Nb Sub Ravinder Singh (JC-265850F), 02 Mar 2007/01 Feb 2007*

Nb Sub Lakhwinder Singh (JC-266568H), 22 Feb 2007/01 Feb 2007*

Nb Sub Akhilesh Kumar Awasti (JC-266632P), 01 Feb 2007

Nb Sub Soman PK (JC-265715N), 09 Feb 2007/12 Jan 2007*

Nb Sub Raveendra Kumar (JC-265890H), 27 Jan 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Ved Prakash Verma (JC-266455A), 23 Jan 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Ghasi Ram Yadav (JC-266868K), 01 Jan 2007

Nb Sub Ram Krishnan Ketenchoth (JC-267308K), 01 Jan 2007

Nb Sub Jaipal Singh (JC-267952W), 06 Jan 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Surendra Singh (JC-265577X), 28 Feb 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Mithilesh Kumar Yadav (JC-265730H), 07 Mar 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Paramjit Singh (JC-265816F), 27 Feb 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Govind Singh (JC-266137W), 05 Mar 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Harbhajan Singh (JC-266711K), 14 Mar 2007/11 Jan 2007*

Nb Sub Reghunadhan Pillai V (JC-266606N), 06 Mar 2007/25 Jan 2007*

Nb Sub Bahadur Singh (JC-266052A), 18 Feb 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Hardan Singh (JC-265886A), 05 Feb 2007/01 Jan 2007*

Nb Sub Krishna Deo Prasad Yadav (JC-266505A), 01 Mar 2007

Nb Sub Laxman Singh (JC-266844A), 01 Mar 2007

Nb Sub Produt Kumar Pramanik (JC-267315A), 03 Mar 2007/01 Mar 2007*

Nb Sub Duni Chand (JC-267505M), 10 Mar 2007/01 Mar 2007*

Nb Sub Abdul Assis N (JC-267845P), 14 Mar 2007/01 Mar 2007*

*(Gtd Seniority wef)

CORPS OF SIGNALS

To be Naib Subedar (GD)

Hav Yogendra Kumar (No. 14253088W now JC-376719Y), 01 Aug 2006

Hav Vijayan PT (No. 14253551M now JC-376720N), 01 Aug 2006

Hav Geeta Ram Sati (No. 14253455X now JC-376721W), 23 Aug 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Ram Surat Prasad (No. 14253654L now JC-376722Y),
02 Sep 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav S N Sharma (No. 14253945L now JC-376723F), 24 Aug 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav P C Biswal (No. 14244471N now JC-376724K), 01 Aug 2006

Hav George E J (No. 14254664F now JC-376725M), 01 Aug 2006

Hav Jogi Ram (No. 14254927P now JC-376726P), 21 Aug 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav A K Sinha (No. 14255092X now JC-376727X), 01 Aug 2006

Hav Harpal Singh (No. 14248957W now JC-376728A), 22 Aug 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 1 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav T Sreenivas (No. 14254090A now JC-376729H), 01 Aug 2006

Hav Ramesh Pal Singh (No. 14248635W now JC-376730X), 01 Sep 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Rajender Singh (No. 14249732A now JC-376731A), 01 Aug 2006

Hav Jaibir Singh (No. 14255799P now JC-376732H), 01 Aug 2006

Hav Vasu Dev (No. 14248862W now JC-376733L), 22 Aug 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Sarjivan Parmar (No. 14248477M now JC-376735W), 26 Aug 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Satish Chandra Pal (No. 14254387F now JC-376788P), 22 Aug 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Samon Selvadhas J (No. 14247083F now JC-376789X), 01 Sep 2006

Hav Lalasab Kiledar (No. 14246141N now JC-376790M), 01 Sep 2006

Hav Amrendra Kishore (No. 14250913X now JC-376791P), 01 Sep 2006

Hav Ramesh Chand (No. 14250997W now JC-376792X), 01 Sep 2006

Hav Satyapal Singh (No. 14255211H now JC-376793A), 01 Sep 2006

Hav Balkaran Singh (No. 14248889N now JC-376794H), 01 Sep 2006

Hav Laxman Singh (No. 14250122A now JC-376795L), 01 Sep 2006

Hav Ram Naresh Singh (No. 14249181A now JC-376796N), 01 Sep 2006

Hav Kewal Singh (No. 14249538L now JC-376797W), 01 Sep 2006

Hav Bheemappa H (No. 14246220H now JC-376799F), 01 Sep 2006

Hav S C Srivastav (No. 14254461X now JC-376800L), 01 Sep 2006

Hav MD Rejaul Karim (No. 14249089F now JC-376801N), 01 Sep 2006

Hav Devendra Singh (No. 14255835P now JC-376802W), 01 Sep 2006

Hav Vipin Chander (No. 14251948A now JC-376803Y), 01 Sep 2006

Hav Hare Ram Singh (No. 14253865N now JC-376804F), 01 Sep 2006

Hav Ramesh Chander (No. 14255951X now JC-376805K), 01 Sep 2006

Hav Bhumi Dev (No. 14258244Y now JC-376806M), 01 Sep 2006

Hav Ashok Kumar Sharma (No. 14260594K now JC-376807P), 01 Sep 2006

Hav Jaivir Singh (No. 14260808P now JC-376808X), 01 Sep 2006

Hav B K Singh (No. 14261044N now JC-376809A), 01 Sep 2006

Hav S S Nathu (No. 14252052L now JC-376810P), 01 Sep 2006

Hav R K Mandal (No. 14256012F now JC-376844H), 01 Sep 2006

Hav Chandran K (No. 14258103K now JC-376845L), 01 Sep 2006

Hav S S Mahipat (No. 14251333P now JC-376846N), 01 Sep 2006

Hav Yadav Ashok Laxman (No. 14251354L now JC-376847W), 01 Sep 2006

Hav Ramesh Chand (No. 14258831K now JC-376849F),
10 Oct 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Bir Singh (No. 14258329P now JC-376856X), 13 Oct 2006

(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Hav Radha Krishan Meena (No. 14248981MK now JC-376862L), 01 Oct 2006

P. RAMA SASTRY
Under Secy.

No. 275, dated 23rd May 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Col to be Brig (& equivalent)

SA Cruze (MR-03447H), 05 Jun 06 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 May 06.

RP Choubey (MR-04188X), 16 Nov 06 with notional seniority without effect on pay & pension from 04 Jun 06.

NK Sharma (MR-03530A), 29 Oct 06 with notional seniority without effect on pay & pension from 03 Sep 06.

R Kushwaha (MR-04220F), 01 Dec 06 with notional seniority without effect on pay & pension from 06 Sep 06.

PK Sahoo (MR-03728Y), 01 Jan 07 with notional seniority without effect on pay & pension from 01 Oct 06.

Gp Capt (& equivalent) to be Air Cmde (& equivalent)

AK Behl (MR-03599K) (AF-14446), 01 Jan 07 with notional seniority without effect on pay & pension from 02 Dec 06.

RAJESH KAMRAN
Brig
Dy. DGAFMS (P)

No. 276, dated 22nd May 2007.—The President is pleased to make the following promotion:—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt DV Sharma (TA-42323) (Infantry), 02 Jan 2005.

N KALIAPPAN
Under Secy.

No. 277, dated 23rd May 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col

IC No., Name and Arm

51966 Bharat Singh Beniwal, Inf

—12 Jun 2006

54872 Jayanto Ghosh, AD Arty

—04 Nov 2006

51864 Manish Kumar Sharma, Engrs

—19 Dec 2005

SHIV RAM BAIRWA

Dy. Dir.
MS-8C

No. 278, dated 21st May 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav (Clk) Santosh Kumar Mohanta (14912244M now JC-420614X), 11 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) with effect from 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Raj Kumar (14911900W now JC-420615A), 08 Dec 2006*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) with effect from 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Ashok Kumar Sharma (14911908H now JC-420616H), 02 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) with effect from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) PK Sasidharan (14911913N now JC-420661P), 03 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clerk) with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Hav (Clk) Manik Chandra Mourya (14911914W now JC-420662X), 01 Mar 2007

Hav (SKT) Subhash Chandra (14902884H now JC-420646A), 06 Jan 2007*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (SKT) with effect from 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Hav (SKT) Gavar Singh (14905180K now JC-420663A),
01 Mar 2007

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 279, dated 24th May 2007.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Col to be Substantive Col (By Time Scale)

IC-38738 Lt Col Raj Kumar, Sigs—07 Jun 2006

IC-31102X Lt Col SPS Sandhu, Engrs—16 Dec 2004

IC-33723P Lt Col Vinod Kumar, Engrs—16 Dec 2004

IC-33795Y Lt Col APT Selvakumar, Engrs—16 Dec 2004

IC-37604W Lt Col BD Shinde, AAD—30 Apr 2006

IC-37616L Lt Col Gurprit Singh, AAD—30 Apr 2006

IC-37688P Lt Col BS Rathore, AAD—14 Nov 2006

IC-37713H Lt Col Vijay Kumar Pillai, Inf—14 Nov 2006

IC-38901W Lt Col AK Gairola, Arty—07 Jun 2006

IC-39012L Lt Col K Purushotham, Inf—07 Jun 2006

IC-39116M Lt Col Gurbinder Singh, Inf—13 Dec 2006

IC-39129K Lt Col SK Bhattacharya, AC—13 Dec 2006

IC-39228M Lt Col Anil Puri, Inf—13 Dec 2006

IC-39273Y Lt Col Jitender Singh, Inf—13 Dec 2006

IC-39326M Lt Col RN Pandey, Arty—13 Dec 2006

IC-39359X Lt Col Rabindra N Senapati, Arty—13 Dec 2006

IC-39393X Lt Col BK Sharma, Inf—13 Dec 2006

IC-39836N Lt Col KS Chaudhary, Engrs—13 Jun 2006

IC-40663N Lt Col RK Bhatnagar, Engrs—12 Jun 2006

IC-41049L Lt Col LS Patwal, Sigs—24 Dec 2006

IC-31506A Lt Col RC Dixit, Inf—16 Dec 2004

IC-31933W Lt Col P Sakhalkar, Engrs—16 Dec 2004

IC-38148H Lt Col MM Dutta, Arty—09 Jun 2005

IC-39168H Lt Col NS Chauhan, Inf—13 Dec 2006

IC-39174W Lt Col SC Dhaundiyal, Inf—13 Dec 2006

IC-39198A Lt Col SS Rana, AC—13 Dec 2006

IC-39220A Lt Col Manjit Singh, Inf—13 Dec 2006

IC-39239Y Lt Col Kamlesh Kumar, AAD—13 Dec 2006

IC-39247X Lt Col Sankar Rajeev, AOC—13 Dec 2006

IC-39266H Lt Col SP Singh, Arty—13 Dec 2006

IC-39271N Lt Col Rakesh Kumar, Arty—13 Dec 2006

IC-39303L Lt Col NY George, Inf—13 Dec 2006

IC-39310F Lt Col Pramod Kumar, Inf—13 Dec 2006

IC-39323Y Lt Col Tom Jose, Arty—13 Dec 2006

IC-39329A Lt Col VP Mane, Inf—13 Dec 2006

IC-39332A Lt Col DM Sharma, Inf—13 Dec 2006

IC-39333H Lt Col Devendra Kumar, Sigs—13 Dec 2006

IC-39346A Lt Col Pravin K Sinha, Mech Inf—13 Dec 2006

IC-39364H Lt Col Mithilesh Kumar, AOC—13 Dec 2006

AJAY GOEL
Dy. Dir.
MS-8A

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 280, dated 23rd May 2007.—The President is pleased to promote the following officers from their existing grade to the next grade w.e.f. 01 Sep 2006 (F/N) as mentioned against each:—

Name, Lab/Estt, Existing Grade, Promoted to Pay Scale of Promoted Grade

S/Shri

AD Gupta, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

M Jayaramullu, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

S Ramesh, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

R Ashok, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

PB Mistry, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

M Vijay Kumar, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

AK Prem Sagar, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

D Prasad, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

D Mustaiyah, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

V Alexander Nichola, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

U Leela Kumari, DRDL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

AK Sugunan, CAIR (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

MR Seshamba, CCE (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

TK Chawla, TBRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

AK Vashishtha, TBRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

CS Majhi, TBRL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

AK Srivastava, TBRL (TO 'C') (TO 'D'), Rs. 12,000-375-16,500/-

Pushpa Devi, TBRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

Anil Kumar Kachawaha, DLJ (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

Manish Kumar Mishra, DLJ (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

Mada Ram Patel, DLJ (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

Hanuman Sangwa, DLJ (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

Misri Lal, DLJ (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

Dadi Ilaiah, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

M Prabhakar Reddy, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

G Satyanarayana, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

N Phaneswara Rao, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

OLN Indu Sekhar, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

GH Ranga Rao, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

Raj Kumar Varma, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

Khamar Sultana, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

V Vijaya Kumari, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

NV Ramana Rao, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

B Ashok, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

K Ramesh Babu, DRDL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

DV Survase, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

GR Kurulkar, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

H Ari, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

SK Panchankar, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

KG Inamdar, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

GS Deshpande, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

NG Swarge, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

SS Samudre, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

SP Newale, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

KK Vasan, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

VM Kugaonkar, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

SP Velapure, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

SS Jagtap, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

SM Lande, HEMRL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

JR Peshave, HEMRL (TO 'C') (TO 'D'), Rs. 12,000-375-16,500/-

S Sukumaran, NPOL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

Annie P Simon, NPOL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

KM Abdul Wahab, NPOL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

A Ushakumari, NPOL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

G Gopi, NPOL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

John P Varghese, NPOL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

KA Gopi, NPOL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

Manikyamba, NPOL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

Cherian P Thomas, NPOL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

KA Jacob, NPOL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

GG Ravi, CEMILAC (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

Abraham Kurian, CEMILAC (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

Adikanda Pati, ITR (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

BK Biswal, ITR (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

BK Rath, ITR (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

Kusum Lata Pandey, DARL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

DS Bhakuni, DARL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

RP Singh, DSTD (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

NK Khosla, DEAL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

HK Sharma, DEAL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

VVS Panwar, DEAL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

Kiran Sinha, DEAL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

Parmeshwar Din, DEAL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

Balram Pathak, DEAL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

PK Bisht, DEAL (TO 'A') (TO 'B'), Rs. 8,000-275-13,500/-

GP Joshi, DEAL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

E Shyamkishwar Singh, ISSA (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

Dr. K Divyananda, CABS (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

C Ravikumar Nair, NPOL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

G Sanalkumar, NPOL (TO 'B') (TO 'C'), Rs. 10,000-325-15,200/-

The undermentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' and TA 'C' to TO w.e.f. 01 Sep 2006 (FN).

Name, Lab/Estt., Existing Grade, Promoted to and Pay Scale of Promoted Grade

S/Shri/Smt.

Deepak Chhabra, TBRL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Suresh Madan, TBRL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Anjulata Purohit, DLJ (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Shree Lal Bishnoi, DLJ (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Vasu Deo, DLJ (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Shashilekha, CAIR (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

P Mallesham, CCE (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

K Srinivas, CCE (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

KJ Ravichandran, CCE (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Shaik G Mohiddin, CCE (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Bhupal Singh, IRDE (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Ravi Bhalla, IRDE (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Ashwani Kumar, IRDE (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

UC Joshi, DARL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

GS Chamoli, DEAL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Rajeev Verma, DEAL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

SK Chawla, DEAL (TA 'C') TO, Rs. 7,450-225-11,500/-

AK Panda, ITR (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Muralidhar Dalai, ITR (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Khageswar Sahoo, ITR (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

T Sairam Patro, ITR (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

PA Sukumaran Nair, NPOL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

KV Surendran, NPOL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

N Surendranathan, NPOL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

S Vasantha Kumari, NPOL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

AP Shandi, NPOL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Manjunath, DRDL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

SGV Murthy, DRDL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

K Ramaswamy, DRDL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

Uma Maheswari, DRDL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

P Mohan, DRDL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

MV Shankar, DRDL (STA 'C') (TO 'A'), Rs. 7,450-225-11,500/-

S Lingam Rao, DRDL (TA 'C') (TO), Rs. 7,450-225-11,500/-

BB SHARMA
Jt. Director (Pers-I)

No. 281, dated 21st May 2007.—The President is pleased to retire Shri Ved Parkash Garg, Section Officer, Ministry of Defence from Government Service with effect from 30-04-2007(AN) on attaining the age of superannuation.

S. K. DEB
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 282, dated 24th May 2007.—The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 28 Feb 2005 (AN):—

V-298 Col Vinayak Narayan Kapre, RVC

IC-24172 Col Narender Bhushan, Engrs

IC-25680 Col (TS) Uttam Chand Chibb, 5 GR

IC-25989 Col Anup Singh Rathee, 9 GR

IC-27030 Col Kush Kumar Shinghal, Engrs

IC-27091 Col (TS) Avinder Pal Singh Sandhu, Sikh LI

IC-30106 Col Surinder Singh, Arty

IC-30142 Col Vishwas Bhaskarrao Shinde, Para

IC-30624 Col (TS) Parkash Singh Bajwa, AEC

IC-30651 Col (TS) Amalendu Mandal, AEC

IC-30976 Col (TS) Bimal Sarkar, AEC

IC-31977 Col (TS) Darke Dilipkumar Dagadu, Sigs

IC-32441 Col Kuldip Singh, 1 GR

IC-32473 Col Mohinder Pal Singh Kahlon, Arty

IC-32718 Col Manjeet Singh Bhalla, Para

IC-32955 Col Hanglem Joykumar Singh, AEC

IC-33014 Col Satwant Singh Chahal, Raj Rif

IC-33392 Col (TS) Ramesh Kumsi, 4 GR

IC-34645 Col Dhani Ram Solnaki, Sigs

IC-34835 Col (TS) Sisir Kumar Misra, Arty

IC-34879 Col Mohinder Singh Pathania, Punjab

IC-35497 Col (TS) Jagdish Singh Sura, Arty

IC-35849 Col (TS) Anil Kumar, EME

IC-36514 Col Rajendra Jain, Sigs

IC-36519 Col (TS) Krishna Kumar Thakur, Sigs

IC-36560 Col Gaya Lal Gupta, EME

IC-36618 Col Laxmendra Kumar Saini, ASC

SL-2804 Lt Col Dharam Singh, AD Arty

SL-3036 Lt Col Satya pal Singh, RO

SL-3102 Lt Col Balbir Singh, QM

SL-3717 Lt Col Bhola Datt Barshilia, Engrs

SL-3767 Lt Col Aminul Islam Chowdhury

RC-760 Maj Deep Singh, Raj Rif

RC-810 Maj Sube Singh Yadav, Para

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Mar 2005 (AN):—

V-329 Col Naresh Kumar Soni, RVC

IC-25690 Col Surrinder Singh Uppal, Grenadiers

IC-25854 Col Narendra Singh Tomar, 3 GR

IC-25893 Col Sanjiv Wattal, Para

IC-25949 Col Arun Mullick, Engrs

IC-27736 Col Mahenda Kumar Tyagi, Arty

IC-31303 Col Ashok Kumar Dhar, EME

IC-31409 Col Min Bahadur Rana, Maratha LI

IC-31571 Col (TS) Parveen Kumar Malhotra, EME

IC-33461 Col (TS) Suresh Kumar Malhotra, Arty

IC-33473 Col Govind Singh Panta, Maratha LI

IC-33865 Col (TS) Jayanta Sarkar, Sigs

IC-33877 Col (TS) Shashi Kumar, AOC

IC-34326 Col Shri Dutt Sarawat, Sigs

IC-35146 Col Rup Chand Jaswal, AOC
 IC-35572 Col Ramavtar Singh Nirban, Raj Rif
 IC-36158 Col Dhirendra Nath Das, Sigs
 SL-2586 Lt Col Krishan Dev Rana, RO
 SL-2824 Lt Col Nilamber Joshi, Engrs
 SL-3160 Lt Col Srinivasa Srinivasan, RO
 SL-3162 Lt Col Shubh Karan Singh Chambial, RO
 SL-3167 Lt Col Chaman Lal Soodan, AD Arty
 SL-3233 Lt Col Kirpal Singh Bhinder, Sigs
 SL-3408 Lt Col Satwant Singh, EME
 SL-3476 Lt Col Shiv Charan Dass Bhardwaj, EME
 SL-3511 Lt Col Satwant Singh, Sigs
 SL-3530 Lt Col Jagdish Chander, RO
 SL-3533 Lt Col Kizhakkekoghattu Chellanppan Arvindakshan Nair, RO
 SL-3546 Maj Dashrath Prasad, RO
 SL-3763 Lt Col BP Bhattacharya, RO
 SL-3790 Lt Col Ombir Singh, EME
 RC-841 Maj RS Tiwary, Sigs
 RC-846 Maj Sant Singh, AC
 RC-884 Maj S Maria Susai, Arty

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Jun 2005 (AN):—

IC-25051 Col Vinod Kumar Chaudhry, Engrs
 IC-27818 Col Pervinder Singh, AC
 IC-27970 Col Virender Kumar Sharma, Jak Rif
 IC-30032 Col Kannanchath Arunkumar Nair, AC
 IC-31349 Col Kuldip Singh Punjab
 IC-31935 Col Sudhakara Rao Tumati, Engrs
 IC-31973 Col (TS) Ahmad Saeed, Sigs
 IC-32801 Col Ramesh Kumar, Arty
 IC-32904 Col Tejinderpal Singh Gill, Sikh
 IC-33099 Col (TS) Roshan Lal Yadav, Kumaon
 IC-33197 Col Prem Bhushan Joneja, Arty
 IC-33614 Col John Anthony Aloysius D'Souza, Raj Rif
 IC-33820 Col Gurcharan Singh Sidhu, Sigs
 IC-33900 Col (TS) Vinod Kumar Sud, EME
 IC-34092 Col (TS) Vazhaparampil Jacob Johny, Arty
 IC-34099 Col (TS) Bera Singh, Arty

IC-34884 Col (TS) Harvinder Singh Sohal Rajput
 IC-34893 Col Mukesh Sharma, Arty
 IC-35663 Col (TS) Amar Singh Savant, AC
 IC-36066 Col (TS) Nirupam Devnath, Arty
 IC-36076 Col Harinder Singh Cheema, Engrs
 IC-36100 Col Pradip Kumar Niyogi, Jat
 IC-36263 Col Davinder Kumar, Punjab
 IC-36264 Col Malavalli Srikantaiah Phani Raj, Ad Arty
 IC-36285 Col (TS) Hoshiyar Singh Jatrana, Raj Rif
 IC-36480 Col (TS) Koshi Puthoor Mani, AOC
 IC-36597 Col (TS) Thomas Ayilookunnel Philip, Int Corps
 IC-36896 Col Rajinder Kumar, Sigs
 V-284 Col Shambhoo Sharma, RVC
 SL-2326 Col CK Radhakrishnan, Engrs
 SL-2799 Maj John Stanley D'Souza, RO
 SL-2998 Col AD Sharma, APTC
 SL-3020 Lt Col Rajendra Kumar Chaubey, RO
 SL-3234 Lt Col Kappat Balagopalan, Sigs
 SL-3293 Lt Col Gian Chand Rana, EME
 SL-3304 Lt Col Guruvappa Krishnasamy, AEC
 SL-3363 Lt Col Vasannagarula Satyanarayan Reddy, Engrs
 SL-3475 Lt Col Mastak Mani Sharma, EME
 SL-3492 Lt Col Mahendra Kumar Nagar, RO
 SL-3693 Maj Mohammed Yusuff, Engrs
 SL-3816 Lt Col Kuldip Singh Gusain, EME
 RC-827 Maj Ranbir Singh Phogat, Raj Rif
 RC-853 Maj N Udy Chandran, Sigs

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Aug 2005 (AN):—

IC-25526 Col Pramod Sharma, Sigs
 IC-25945 Col Vinayak Bal Kelkar, Arty
 IC-27082 Col Virinder Pal Singh Sekhon, Arty
 IC-27286 Col Arun Kumar Opal, Arty
 IC-27493 Col Ajit Singh Rathore, Jak LI
 IC-30426 Col Arvind Kumar Negi, AD Arty
 IC-30496 Col Kalyan Bhattacharya, Sigs
 IC-31224 Col (TS) Anil Kumar Gupta, EME
 IC-31253 Col (TS) Guna Prakash Krishnan, EME

IC-31606 Col Ravinder Kumar Jain, EME
 IC-32124 Col Ninderjit Singh Chandhoke, ASC (FIO)
 IC-32780 Col Rajendra Nath Srivastava, Bihar
 IC-33016 Col (TS) Aditya Kumar Pandey, Mech Inf
 IC-33176 Col (TS) Jagdish Singh Gill, AOC
 IC-33394 Col (TS) Yashwant Kumar Singh, AC
 IC-33753 Col (TS) Chandra Nath Chakravarty, Rajput
 IC-33791 Col Surendra Singh, Jak LI
 IC-34477 Col (TS) Arjun Singh Adhikari, Sikh
 IC-35639 Col (TS) Hardev Krishan Kaushal, ASC
 IC-35866 Col (TS) Tapan Mohan Paul, EME
 IC-35957 Col (TS) Ishwar Singh Birman, AOC
 IC-36350 Col Sunil Kumar Anand, Garh Rif
 IC-36449 Col Krishna Gopal Chatterjee, 4 GR
 IC-38008 Col (TS) Gurdev Singh Multani, Arty
 V-310 Col Onkar Singh Bhati, RVC
 SL-3374 Lt Col Chandra Lohani Yadawa, Engrs
 SL-3691 Lt Col Venkatanarayan Subbakrishna, Engrs
 SL-3726 Lt Col Natchimuthu Sakthival, Sigs
 SL-3803 Maj Mahendra Singh Rajbar, EME

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Sep 2005 (AN):—

IC-25075 Col Raj Kumar Sharma, Arty
 IC-25418 Col Jitpal Singh Rawat, Engrs
 IC-25443 Col Prasanta Pratim Agarwala, Jak LI
 IC-25477 Col (TS) Manbir Singh, EME
 IC-25603 Col (TS) Sidhartha Bose, Arty
 IC-25889 Col Bikram Dev Singh Gill, AC
 IC-25926 Col (TS) Kamal Shekhar Mehta, Bihar
 IC-25930 Col Jeet Kumar Zope, Arty
 IC-27040 Col Satish Kumar Sethi, Mech Inf
 IC-27128 Col Ashok Tandon, Jak Rif
 IC-27207 Col Amarpal Singh Multani, EME
 IC-30041 Col (TS) Surinder Singh, ASC
 IC-30177 Col Xavier Pereira, AD Arty
 IC-30179 Col (TS) Tarun Chatterjee, Jak LI
 IC-30199 Col Pradeep Rangarao Yedekar, Arty
 IC-30661 Col Ajay Raj Singh Panwar, AEC

IC-31272 Col (TS) Haresh Chandra Cuaturvedi, EME
 IC-32733 Col Vijay Kumar Malhotra, Arty
 IC-32746 Col Kumar Subramanian, Arty
 IC-32755 Col (TS) Partha Sarathi Kar, Sikh
 IC-33146 Col (TS) Krishan Gopal Thapa, Sikh
 IC-33310 Col Amar Vir Singh Ghuman, Sikh LI
 IC-33351 Col (TS) Ramdev Pillai, AOC
 IC-33715 Col (TS) Parikshit Sharma, Engrs
 IC-33731 Col Rajen Gurung, AD Arty
 IC-34300 Col Lanka Suryanarayana Murthy, EME
 IC-34734 Col (TS) Mahesh Chandra Tripathy, EME
 IC-35058 Col (TS) Anoop Singh Arora, Engrs
 IC-35525 Col (TS) Umesh Chandra Singh Rawat, 9 GR
 IC-35539 Col (TS) Om Prakash Yadav, AOC
 IC-36427 Col Arun Vishwanath Vyas, Engrs
 IC-36458 Col (TS) Ved Parkash, Arty
 IC-36596 Col (TS) Devendra Kumar, Engrs
 SL-2862 Lt Col Raj Singh, Sigs
 SL-3303 Lt Col Ram Ashre Mishra, AEC
 SL-3332 Lt Col Raghunath Singh, RO
 SL-3552 Lt Col Gurdev Singh, Sigs
 SL-3664 Lt Col Suresh Prasad Singh, RO
 SL-3727 Lt Col Gurbachan Singh Tung, EME
 SL-3844 Lt Col Anirudh Uttam, EME

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Oct 2005 (AN):—

IC-25210 Col Rajiv Sharma, Arty
 IC-25474 Col (TS) Ranjan Dutta, Arty
 IC-25588 Col (TS) Suresh Ramtri, AOC
 IC-25811 Col Devinder Singh Sidhu, Engrs
 IC-25857 Col Vijay Kumar Sharma, Sigs
 IC-27020 Col Joginder Kumar Maindiratta, Sikh LI
 IC-27061 Col (TS) Vijay Kumar Singh, 1 GR
 IC-27116 Col (TS) Mulkjeet Singh Sandhu, Kumaon
 IC-27252 Col (TS) Balvinder Singh, Sigs
 IC-27337 Col Bapu Prasad, Arty
 IC-30086 Col (TS) Hari Gopal Singh Yadav, AD Arty
 IC-30107 Col Surjit Singh, Jat

IC-30187 Col Anup Kumar Chopra, Arty
 IC-31239 Col (TS) Surjit Singh Turna, EME
 IC-31269 Col(TS) Ramesh Singh, EME
 IC-31630 Col (TS) Sarvesh Kumar Singh, AEC
 IC-31985 Col (TS) Sarabjeet Singh, Engrs
 IC-32923 Col (TS) Mahendra Pratapa Chhibber, Arty
 IC-33447 Lt Col Gurinder Jit Singh, AC
 IC-33475 Col Sharad Seth, Arty
 IC-33822 Col(TS) Ramesh Chandar Saini, AD Arty
 IC-34673 Col Pramodkumar Brhamdatt Suri, Engrs
 IC-35031 Col Laxmi Narain Sharma, Sigs
 IC-36001 Col (TS) Mukesh Anand, Arty
 IC-36024 Col Manotosh Datta, Engrs
 IC-36097 Col(TS) Rajinder Kumar, 4 GR
 IC-36151 Col (TS) Shiwesh Chandra Jha, Jak Rif
 IC-36174 Col (TS) Gurpreet Singh, Arty
 IC-36389 Col Vijay Kumar Verma, AC
 IC-36505 Col (TS) Balbhadra Dikshit, Engrs
 IC-36575 Col (TS) Satyendra Kumar Singh, ASC
 SL-2445 Col (TS) BS Gill, QM
 SL-2835 Lt Col Kailash Chander Grover, Engrs
 SL-3473 Lt Col Pritam Singh, Engrs
 SL-3531 Lt Col Harbans Singh, QM
 SL-3606 Lt Col Ram Kishan Sharma, EME
 SL-3847 Lt Col SS Thapa, QM
 RC-839 Maj AP Palangappa, Sigs
 RC-852 Maj Baldev Singh, Sikh

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Nov 2005 (AN):—

IC-25101 Col Gurparkash Singh, Sikh LI
 IC-25117 Col (TS) Abhay Kumar Prasad, Arty
 IC-25452 Col Jai Chand Khanoria, AC
 IC-25896 Col Suresh Kumar Rathi, AOC
 IC-27306 Col Sudarshan Singh Rawat, Bihar
 IC-30026 Col Ramswarup Shantiswarup Vasudev, Arty
 IC-30453 Col Tejinder Singh Bedi, AD Arty
 IC-30720 Col Hardeep Singh Grewal, Madras
 IC-30895 Col Subramanian Sankar, Jak LI

IC-31280 Col (TS) Rajinder Kumar Chaudhar, AEC
 IC-33242 Col Harjinder Singh, Assam
 IC-33476 Col Suresh Chander Gulati, Sikh
 IC-33671 Col Sudhir Saini, Sigs
 IC-33859 Col Brajesh Pratap Singh, Jag
 IC-34658 Col Suresh Kumar, AD Arty
 IC-34704 Col Jagdish Chander Mehta, Sigs
 IC-36065 Col Dilbagh Singh Randhawa, Madras
 IC-36090 Col Edwin Charles Henry Francis, Maratha

LI

IC-36199 Col Lal Bhushan Mishra, 5 GR
 IC-36325 Col(TS) Ravinder Singh Dhillon, AC
 IC-36333 Col(TS) Ellykkal Kamalam Sudhakaran, EME
 IC-36405 Col (TS) Satnam Singh Choudhary, Arty
 IC-36474 Col(TS) Ashok Kumar Sood, ASC
 IC-36529 Col Azad Singh Sehrawat, Kumaon
 IC-36541 Col Jai Parkash, Sigs
 IC-36631 Col Sateesh Ramchandra Paranjpe, Sigs
 SL-2687 Lt Col Jaswant Singh, RO
 SL-3035 Lt Col Rattan Lal Sharma, RO
 SL-3276 Lt Col Ganapathy Manakkavu Iyyanar, EME
 SL-3296 Lt Col Raghbir Singh, EME
 SL-3301 Lt Col Surinder Singh, AEC
 SL-3357 Lt Col Balwinder Singh, AD Arty
 SL-3417 Maj Rameshwar Naik, EME
 SL-3505 Lt Col Ranjit Singh, Sigs
 SL-3653 Lt Col Jai Bhagwan Singh, RO
 SL-3757 Lt Col Piara Singh, QM
 RC-728 Maj V Sivadasan, Madras
 RC-896 Maj Joshan Singh, AC

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Dec 2005 (AN):—

IC-25152 Col Ravindra Dixit, Arty
 IC-25421 Col Jugvir Singh, AC
 IC-25430 Col Avtar Singh, Kumaon
 IC-25513 Col Birhampal Singh Sirohi, AC
 IC-25570 Col (TS) Rajinder Singh, Guards
 IC-25638 Col Amarjeet Singh, Sigs
 IC-25933 Col Jasbir Singh Nirmal, Naga

- IC-27002 Col (TS) Ashok Kumar Malhotra, Assam
 IC-27045 Col (TS) Chandra Kanta Bora, Grenadiers
 IC-27050 Col Abinash Kaul, Mahar
 IC-27209 Col (TS) Rajendra Singh Udawat, AC
 IC-27503 Col (TS) Rajpal Singh Kundu, Dogra
 IC-27692 Col Inder Vir Singh, Arty
 IC-27754 Col Vinay Kumar Mathur, Madras
 IC-27843 Col (TS) Suresh Chander Tyagi, Engrs
 IC-30038 Col Sundaresan Kumar, Arty
 IC-30129 Col (TS) Srish Prabhakar Kelkar, Jak LI
 IC-30307 Col Balkrishna Kalidhar, Sigs
 IC-30423 Col (TS) Mahinder Singh Malik, Kumaon
 IC-30928 Col (TS) Krishan Kher, Arty
 IC-32850 Col Gurmanjit Singh Sandhu, Para
 IC-33020 Col Shuja Ahmed Qureshi, Grenadiers
 IC-33081 Col Udayan Mustafi, Raj Rif
 IC-33213 Col (TS) Gurdarshan Singh Sandhu, Arty
 IC-33513 Col Anil Kumar Tuli, Arty
 IC-33685 Col (TS) Tejinder Singh, Sikh
 IC-33829 Col (TS) Viswanatha Pillai Kuttan Pillai, Sigs
 IC-33835 Col (TS) Tejindar Singh, 5 GR
 IC-34285 Col (TS) Surinderbir Singh, Sigs
 IC-34540 Col (TS) Ladu Kishore Achari, Rajput
 IC-34669 Col (TS) Jayakrishnan Padmanabhan, Engrs
 IC-34693 Col (TS) Manish Sushilchandra Mehta, EME
 IC-34744 Col (TS) Awinash Ambadas Pustake, Engrs
 IC-34824 Col Kunja Babu Singha, Arty
 IC-35045 Col (TS) Sunny Aikara Varkey, EME
 IC-35128 Col (TS) Bhagwan Singh Chib, AOC
 IC-35348 Col (TS) Narinder Kumar, ASC
 IC-35389 Col Shishir Kumar, EME
 IC-35416 Col (TS) Modur Lakshminaranian Narasimha, Engrs
 IC-35447 Col (TS) Harish Chandra Pandey, Sigs
 IC-35476 Col (TS) Avtar Singh, J&K LI
 IC-35531 Col (TS) Pramod Kumar Tamang, Jat
 IC-35579 Col (TS) Satish Chander Saini, Guards
 IC-35604 Col (TS) Bijai Singh, Grenadiers
 IC-35651 Col MJ Joseph, ASC
 IC-36020 Col Jayawantrao Lalaseheb Patankar, Mech Inf
 IC-36209 Col Virender Pal Singh, Maratha LI
 IC-36212 Col Rakesh Kumar Monga, Engrs
 IC-36248 Col Brinder Singh Singhota, 4 GR
 IC-36274 Col Sardul Singh, Arty
 IC-36281 Col Janardhan Bhattacharjee, AOC
 IC-36345 Col (TS) Mohan Krishna Pande, Jat
 IC-36407 Lt Col Kumar Shridhar Harshey, AD Arty
 IC-36414 Col (TS) Jasjit Singh Randhawa, AC
 IC-36431 Col (TS) Surendra Singh Dogra, AC
 IC-36467 Col (TS) Shailendra Kumar Paliwal, Arty
 IC-36487 Col (TS) Surinder Kumar, Sigs
 IC-36608 Col (TS) Lourdasamy Vincent Kulandai Raj, Arty
 IC-36613 Col (TS) Avtar Krishan, Dogra
 IC-36628 Col (TS) Ashish Dutta, EME
 IC-36997 Col (TS) Jaswant Kumar, Sigs
 IC-38209 Col (TS) Megh Singh, Sigs
 IC-38783 Lt Col Mohinder Jit Singh, AOC
 IC-39014 Lt Col Ramesh Bakshi, AOC
 SL-2595 Maj Tarlochan Datt, RO
 SL-2800 Lt Col Chaman Lal Bhangotra, RO
 SL-3058 Lt Col Tarlochan Singh, Sigs
 SL-3104 Lt Col M Purushothaman, QM
 SL-3145 Lt Col OM Parkash, RO
 SL-3155 Lt Col Sukhdev Sharma, RO
 SL-3217 Lt Col Satya Prakash Misra, Sigs
 SL-3273 Lt Col Nawal Singh, EME
 SL-3305 Lt Col Shri Krishan Ahlawat, AEC
 SL-3465 Lt Col Kishore Singh Shekhawat, QM
 SL-3620 Lt Col Dal Chand, EME
 SL-3633 Lt Col Munsha Singh, EME
 SL-3722 Lt Col Santosh Raj, EME
 RC-730 Maj Jasbir Singh, AD Arty
 RC-733 Maj BV Subraya, Engrs
 RC-738 Maj G Vijaya Kumar, Engrs
 RC-739 Maj Manu Sharma, Assam

RC-740 Maj Basti Ram, Arty
 RC-741 Maj Shanmugam Vijayakumar, Engrs, Bangalore
 RC-742 Maj Mohan Singh Sohal, AD Arty
 RC-746 Maj TT Sonawane, EME
 RC-747 Maj D Prakas, Engrs
 RC-748 Maj Basant Singh Bhardwaj, Dogra
 RC-750 Maj Padam Bahadur Gurung, 11 GR
 RC-751 Maj P Venugoplan, EME
 RC-752 Maj Vinod Kumar Sharma, EME
 RC-753 Maj Puran Singh, EME
 RC-754 Maj Nalinakshan Chengoli, Engrs
 RC-756 Maj Harbans Datt Thakiyal, Jak Rif
 RC-759 Maj K Janardanan, EME
 RC-766 Maj Yadwinder Singh, Punjab
 RC-767 Maj Basudev Singh Guleria, Jak Rif
 RC-768 Maj Tej Bir Subba, 11 GR
 RC-769 Maj Gurcharan Singh Bhullar, Punjab
 RC-771 Maj DB Rao, Sigs
 RC-775 Maj K Suseelan, EME
 RC-776 Maj Govind Singh Uniyal, EME
 RC-777 Maj Ram Kumar, EME
 RC-778 Maj Rameshwar Yadav, EME
 RC-779 Maj Udaya Vihari K, EME
 RC-780 Maj Suriya Kant, AD Arty
 RC-781 Maj K Robindro Singh, Arty
 RC-782 Maj S Jayakar, Int Corps
 RC-783 Maj Ananla Kumar Banerjee, Sigs
 RC-785 Maj Amberish Prasad Dubey, Sigs
 RC-789 Maj Kailash Mishra, EME
 RC-790 Maj Bishan Dass Chaudhary, Dogra
 RC-791 Maj Birendra Singh, Arty
 RC-792 Maj Gurdeep Singh, Sigs
 RC-793 Maj Ram Singh Chauhan, Dogra
 RC-794 Maj Muppalla Ramesh Babu, Engrs
 RC-799 Maj Parkash Chand Azad, AC
 RC-800 Maj Narendra Pal Singh, EME
 RC-801 Maj Bali Ram Rai, ASC
 RC-803 Maj Manjit Singh, EME
 RC-804 Maj Hari OM Prakash Sharma, EME

RC-805 Maj Jasbir Singh, Arty

RC-806 Maj Ranjit Singh, AC

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 28 Feb 2006 (AN):—

IC-25714 Col Arvind Kumar Malhotra, Punjab

IC-25975 Col (TS) Arun Munaswami Nazare, Mahar

IC-27036 Col (TS) Prakash Rajaram Joshi, Mahar

IC-27230 Col Rajinder Singh Bhandari, Arty

IC-27293 Col (TS) Surendra Singh Yadava, Engrs

IC-27620 Col (TS) Narinder Pal Singh, Sigs

IC-27624 Col Man Mohan Singh Tanwar, Arty

IC-27691 Col Srinivasan Amudhan, Arty

IC-27799 Col (TS) Narinder Mohan Kohli, AD Arty

IC-27839 Col (TS) Pritam Singh, Engrs

IC-30083 Col (TS) Yash Ryan, AC

IC-30209 Col (TS) Krishan Pal Sharma, Arty

IC-30630 Col (TS) Krishna Bahadur Pradhan, AEC

IC-31153 Col (TS) Vivek Hedge, Assam

IC-31959 Col Kasukurthi Prasad, EME

IC-32670 Col (TS) Udai Pratap Singh, AEC

IC-32870 Col (TS) Harish Chandra Joshi, Mahar

IC-32912 Col Pratap Mohan Sharma, Jat

IC-33330 Lt Col Shiv Kumar Mishra, Mech Inf

IC-33514 Col Kanwar Yudhvir Singh Bairaria, Arty

IC-33758 Col (TS) Manoranjan Sasmal, Sigs

IC-34531 Col (TS) Ashok Mall, Kumaon

IC-34539 Col (TS) CP Ramachandran

IC-34801 Col Satya Narain Singh, ASC

IC-34981 Col (TS) Iqbal Singh, Guards

IC-35325 Lt Col Shiv Dutt Gurung, Arty

IC-35456 Col (TS) Suresh Kumar Srivastava, Engrs

IC-35552 Col (TS) Ashok Kumar Yadav, Arty

IC-35795 Col (TS) Ashok Kumar Singh, Sigs

IC-36012 Col Hardayal Singh Randhawa, Arty

IC-36015 Col Sudershan Kumar, AC

IC-36121 Col Satchit Kumar Basu, EME

IC-36133 Lt Col (TS) Dipak Kumar Bhattacharyya, Engrs

IC-36193 Col Meenakshi Sundaram Muthuswami, EME

IC-36205 Col Brij Mohan Sharma, AOC
 IC-36447 Col (TS) Ramesh Kumar Bhardwaj, 3 GR
 IC-36533 Col Chandramohanan Unnithan
 Kinaruvilamekkathil Ramakrishnan Unnithan, AD Arty
 IC-38131 Col Narendra Kumar Yadav, ASC
 IC-38164 Lt Col Narinder Pal, Arty
 IC-38239 Col (TS) Bhagwan Kisan Bhonde, Engrs
 IC-38426 Lt Col Nishan Singh Randhawa, AOC
 IC-38504 Lt Col PS Raju, Rajput
 IC-38532 Col (TS) Prafulla Kumar Mohanta, Arty
 IC-38544 Col (TS) Chaitanya Gohain, Arty
 SL-3488 Lt Col P Balasubramanian, Sigs
 SL-3577 Lt Col Keshar Singh Rao, QM
 SL-3701 Lt Col Jai Singh Kaliraman, Sigs
 SL-3709 Lt Col Chain Singh, EME
 SL-3848 Lt Col Shangara Singh, EME
 SL-3850 Lt Col Vegi Nooka Raju, Sigs
 SL-3141 Lt Col Mohinder Kumar Bral, RO
 RC-866 Maj Bhup Singh, AOC

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 31 Mar 2006 (AN):—

IC-25100 Col Akhauri Ranjan Sinha, Assam
 IC-25852 Col Devinder Singh, Guards
 IC-25928 Col Satindra Singh, Para
 IC-27199 Col Shirish Vinayak Kulkarni, Arty
 IC-27340 Col (TS) Yogesh Krishan Sharma, EME
 IC-27341 Col Jayaling Patrayya Hiremath, Guards
 IC-27396 Col (TS) Gopal Sharan, AD Arty
 IC-27670 Col Amarjit Singh Sahota, AD Arty
 IC-30174 Col Rajendra Joshi, Jat
 IC-30776 Col (TS) Jaidev Sharma, Sigs
 IC-30880 Col (TS) Rabindra Kumar Pattanaik, Engrs
 IC-31296 Col (TS) Sitarama Rao Deshpande, EME
 IC-31308 Col (TS) Vinod Kumar Bahl, EME
 IC-31561 Col (TS) Jung Bahadur Singh, Sigs
 IC-31598 Col (TS) Alagirisamy Jaganarayanan, EME
 IC-31617 Col (TS) Balwant Singh Thindh, EME

IC-31991 Lt Col Pardeshi Sharadkumar Bhailal, EME
 IC-32856 Col Firoze B Allavali, Arty
 IC-33025 Col Surinder Kumar Mehta, 1GR
 IC-33046 Col Vinod Thomas, Maratha LI
 IC-33795 Lt Col Arulanandam Paul Thomas Selvakumar, Engrs
 IC-34948 Col Bhushan Sankappa Hegde, ASC
 IC-35071 Col (TS) Pratap Singh Thakur, Sigs
 IC-35175 Col (TS) Kamal Lal Chhetri, ASC
 IC-35409 Lt Col Har Gopal Vohra, Engrs
 IC-35619 Col Sawaran Singh Pathania, Sikh
 IC-35653 Col Mohmad Maqbool Shah, Maratha LI
 IC-35701 Col (TS) Dharam Vir Deswal, ASC
 IC-35806 Col (TS) Balram Mandal, EME
 IC-35880 Col (TS) Vijay Kumar Bhandari, EME
 IC-36324 Col (TS) Ashok Kumar Bakshi, Raj Rif
 IC-36338 Col (TS) Sajan Singh Ram Kumar Yadav, Arty
 IC-36461 Col (TS) Harinder Singh Chauhan, AOC
 IC-36539 Col Darshan Kumar Salwan, Rajput
 IC-36559 Col (TS) Rami Kumar Rana, Maratha LI
 IC-36609 Col (TS) Dilip Dinanath Kulkarni, Maratha LI
 IC-36647 Col Valhapyallil Mathai Vinsanthiose, Sigs
 IC-36884 Col (TS) Qumar Ahmed, EME
 IC-36987 Col (TS) Atul Kumar Anand, Engrs
 IC-38473 Col Jagdish Chand, AOC
 SL-2735 Lt Col Kirpal Singh Dogra, APTC
 SL-2954 Lt Col Vishnu Shinde, Engrs
 SL-3144 Lt Col Vasant Bakal, RO
 SL-3198 Lt Col Nirpal Singh Grewal, Engrs
 SL-3600 Lt Col Khem Singh Hundal, Sigs
 SL-3614 Lt Col Amrik Singh, EME
 SL-3615 Lt Col Hardip Singh, EME
 SL-3637 Lt Col Bipin Bihari Ojha, Sigs
 SL-3698 Lt Col Tej Bhan, Engrs
 SL-3796 Lt Col Jugendra Singh Verma, RO
 SL-3859 Lt Col Sukhdev Singh, Engrs
 RC-895 Maj Jagdip Singh, Engrs

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Apr 2006 (AN):—

IC-25823 Col (TS) Raj Kumar Singh, EME
 IC-25905 Col (TS) Ranjan Kumar Likhi, Arty
 IC-27400 Col (TS) Prakash Kumar Mishra, Sigs
 IC-27688 Col Mukund Keshav Pandit, Arty
 IC-27983 Col (TS) Vinod Kumar Kochhar, AC
 IC-30115 Col Vijay Samuel Lal, Rajput
 IC-30232 Col (TS) Vijay Kumar Prabhakar, AOC
 IC-30297 Col (TS) Nagaraj Srikantiah, Engrs
 IC-30611 Col (TS) Darshan Singh, AEC
 IC-30888 Col (TS) Narinder Paul, Dogra
 IC-30902 Col (TS) Amar Singh, Jak Rif
 IC-31590 Col (TS) Dinesh Chandra Mishra, Engrs
 IC-31960 Col (TS) Baby Mathew Pulikottil George, Sigs
 IC-32871 Col (TS) Ravi Prakash Sharma, Jak Rif
 IC-33471 Col Arun Kumar, Jat
 IC-33508 Col (TS) Ashok Anand Kanetkar, ASC
 IC-34160 Col (TS) Krishan Chand, Madras
 IC-34696 Col (TS) Prem Singh, Engrs
 IC-34886 Col (TS) Baldev Singh Katoch, Dogra
 IC-35032 Col (TS) Khuman Lal Sahu, Sigs
 IC-35771 Col (TS) Laxmi Dutt Upadhyay, 11 GR
 IC-35996 Col Hardit Singh, Arty
 IC-36013 Col (TS) Ashok Chakarvarty Chhibbar, EME
 IC-36048 Col (TS) Umesh Kunnath Gopinath, AD Arty
 IC-36053 Col (TS) Inderjit Singh, Arty
 IC-36162 Col (TS) Ram Kishore Seth, Sigs
 IC-36282 Col (TS) Mahendra Singh, Raj Rif
 IC-36374 Col (TS) Abraham Habbi, Arty
 IC-36401 Col Thotapalli Mahesh Kumar, ASC
 IC-36500 Col (TS) Arabinda Maitra, Arty
 IC-36509 Lt Col Vinod Kumar Dubay, Engrs
 IC-37447 Col (TS) Awadesh Behari Dwivedi, EME
 IC-37535 Lt Col Ram Kishore Singh, Engrs
 IC-38395 Col (TS) Arjun Singh, Arty
 IC-38534 Col (TS) PV Varghese, Bihar
 IC-38560 Col Balindar Singh Chowdhary, AOC
 SL-2796 Lt Col Amrik Singh Bajwa, RO

SL-3192 Lt Col Raja Ahuja, Engrs
 SL-3246 Lt Col Sham Shivinder Paul Singh, Sigs
 SL-3333 Lt Col Shakti Lal, RO
 SL-3467 Lt Col Dilbagh Singh Bariana, Sigs
 SL-3730 Lt Col Sarwan Kumar, Arty
 RC-847 Maj Kunwar Singh, Kumaon
 RC-855 Maj Ghulam Mohiuddin Khan, Engrs
 RC-893 Maj Yograj Chouhan, Grenadiers

The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army service on attaining the age of superannuation with effect from 31 May 2006 (AN):—

IC-25142 Col Surinder Tyagi, Sigs
 IC-25554 Col (TS) Jujhar Singh, Arty
 IC-25870 Col Harkirpal Singh Toor, AOC
 IC-25882 Col Promit Roy, Assam
 IC-27242 Col Amar Deep Singh, Arty
 IC-27255 Col (TS) Srikant Raina, 9 GR
 IC-27254 Col (TS) Biplab Nanoy Majumdar, Mech Inf
 IC-27375 Col Devinder Singh Narban, Arty
 IC-27382 Col Hemant Sharma, Sigs
 IC-27815 Col Parvesh Kumar Misra, AD Arty
 IC-27856 Col (TS) Rattan Singh Shekhawat, Arty
 IC-30632 Lt Col Sabapathy Chandrashekar, Sigs
 IC-30768 Col Sankara Narayana Swamy, Sigs
 IC-30907 Col (TS) Nirbhai Marwaha, Para
 IC-30945 Col Bharat Singh Bisht, Raj Rif
 IC-30964 Col Subhash Chandra Chakravarty, ASC (FIO)
 IC-31159 Col Kochuparampil Varkey Cherian, 11 GR
 IC-31550 Col Romesh Krishen Kaul, Sigs
 IC-31554 Col (TS) Ramesh Kumar, Sigs
 IC-33574 Col Antony Panamparambil Varghese, 5 GR
 IC-33771 Col Shyam Lal Kapoor, Sigs
 IC-33787 Col (TS) KV Raghava Varier, AD Arty
 IC-33956 Lt Col Vasanth Kumar Rao, Jak LI
 IC-33978 Col Satinder Singh Solanki, ASC
 IC-34706 Col Ramakant Motiram Khaire, Sigs
 IC-34751 Col (TS) Rama Mohan Rao Vummadisingu, Engrs
 IC-34899 Col Dharuv Chand Katoch, AC
 IC-35453 Col (TS) Om Prakash Ram Dayal Saini, Engrs

IC-36335 Col (TS) Dinkar Dattatraya Shinde, Madras

IC-36438 Col (TS) Anil Kapila, 11 GR

IC-36651 Col (TS) Brahamdev Singh Vasir, Sigs

IC-37074 Col (TS) Bhaskar Roy, EME

IC-37155 Col (TS) Pooran Mal Meena, Engrs

IC-38040 Col (TS) Ravinder Singh, Jat

IC-38048 Col (TS) Palanikkunnathil John, Madras

IC-38102 Col (TS) Janardan Prasad, Dogra

IC-38281 Col Sujan Singh, Arty

V-325 Col Devendra Singh Teotia, RVC

V-326 Col Ranadir De, RVC

SL-2558 Col K Moorthi SR, QM

SL-2825 Col Chiravatath Tharayil Kunhi Marakkar, Engrs

SL-3324 Lt Col Attar Singh Hooda, RO

SL-3029 Lt Col Kamal Singh Thapa, RO

SL-3337 Lt Col K George Vaidian, RO

SL-3471 Lt Col Kosuri Lakashmi Narayana, Engrs

SL-3500 Lt Col Ramakrishnan Thazhathe Veetil, EME

SL-3630 Lt Col S Sengole, Sigs

SL-3642 Lt Col Ram Singh Bajar, APTC

SL-3755 Lt Col Sitaramaiah Nagula, EME

SL-3831 Lt Col Venkatachalaiah, Engrs

RC-815 Maj Gurcharan Singh Puria, AD Arty

RC-907 Maj Upendra Narayan Singh, Sigs

SUNNANA BHARTI

Dy. Director

MS Retirement

CORRIGENDUM

No. 283, dated 21st May 2007.—The following amendment is made to this Ministry's Notification issued under No. A-19018/1/2007/D(Est.I/Gp.I), dated 23.03.2007 appointing Shri Mohd. Gohar Hussain as Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Defence:—

In line 8 of Para 1:

For—31.12.2006

Read—30.06.2007

S. K. DEB
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 284, dated 23rd May 2007.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ADDENDUM

Discipline Award : IC-38824 AK Singh, Inf

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification dated 23 Dec 2006 (Part-I Section-IV) under the heading Regular Army Permanent Commission and sub-heading 'Discipline Award : IC-38824 AK Singh, Inf', the following addition is made :—

"After paragraphs (a), (b) and (c) read 28 Jan 2004 "

AJAY GOEL

Dy. Director

MS-8A

CORRIGENDA

No. 285, dated 21st May 2007.—Following amendment may please be made at Sl. No. 575 in Part-I, Section-4 of the Gazette Notification dated 18-24 Nov 2006:—

For—Shri T Panigrahi, Joint Director, ATVP

Read—Shri T Panigrahi, Director

JATINDERBIR SINGH

Jt. Secy. (Trg) and

Chief Administrative Officer

ARMY BRANCH

No. 286, dated 23rd May 2007.—The President is pleased to make the following amendment in the Ministry of Defence Gazette Notification published in Part I, Section-4 of the Gazette of India on 03 Feb 2007 under the heading 'Regular Army/Permanent Commission' & Sub-heading 'Lt Col to be Col (& equivalent)' :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(ARMY MEDICAL CORPS)

Lt Col to be Col (& equivalent)

For—

VM Nayak (MR-04543K), 07.12.2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 03.04.2005.

Read—

VM Nayak (MR-04543K), 03.12.2005 with notional seniority without effect on pay & pension from 03.04.2005.

RAJESH KAMRAN

Brig

Dy. DGAFMS (P)

No. 287, dated 23rd May 2007.—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification Published on 20 Jan 2007 under the heading “Regular Army, Permanent Commission”, and sub-heading “Maj to be Lt Col” the following amendment is made:—

Against—IC-46911 Jal Singh, AOC

For—

09 Nov 2005

Read—

07 Nov 2005

SHIV RAM BAIRWA
Dy. Dir.
MS-8C

No. 288, dated 23rd May 2007.

REGULAR ARMY

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

In the Govt. of India, Ministry of Defence Gazette Notification published on 06 May 2006 under the heading ‘Regular Army (Short Service Commission)’ and sub heading “To be Lt” following is hereby amended as under:—

For—SS-41248Y Gurav Bhatnagar, Inf

Read—SS-41248Y Gaurav Bhatnagar, Inf

SK SHARMA
Lt Col
AMS-8B